

# **NATIONAL ELIGIBILITY CUM ENTRANCE TEST**

**NEET (UG), 2015  
(CODE:B)**

1. list given below and tell the correct order of the components with reference to their arrangement from outer side to inner side in a woody dicot stem :
- (a) Secondary cortex  
(b) Wood  
(c) Secondary phloem  
(d) Phellem
- The correct order is :
- (1) (c), (d), (b), (a)  
(2) (a), (b), (d), (c)  
(3) (d), (a), (c), (b)  
(4) (d), (c), (a), (b)
2. Chromatophores take part in
- (1) Photosynthesis  
(2) Growth  
(3) Movement  
(4) Respiration
3. Which of the following joints would allow no movement ?
- (1) Fibrous joint  
(2) Cartilaginous joint  
(3) Synovial joint  
(4) Ball and Socket joint
4. The wheat grain has an embryo with one large, shield-shaped cotyledon known as :
- (1) Epiblast  
(2) Coleorrhiza  
(3) Scutellum  
(4) Coleoptile
5. A gene showing codominance has :
- (1) one allele dominant on the other  
(2) alleles tightly linked on the same chromosome  
(3) alleles that are recessive to each other  
(4) both alleles independently expressed in the heterozygote
6. Which of the following structures is **not** found in a prokaryotic cell ?
- (1) Nuclear envelope  
(2) Ribosome  
(3) Mesosome  
(4) Plasma membrane
- नीचे दी गयी सूची में (a) से (d) तक विभिन्न अवयवों को पढ़ें और एक काष्ठीय द्विबीजपत्री तने में बाहर से भीतर की ओर उनकी व्यवस्था का सही क्रम बतायें
- (a) द्वितीयक वल्फुट  
(b) काष्ठ  
(c) द्वितीयक पोषवाह  
(d) फेल्लम
- सही क्रम है
- (1) (c), (d), (b), (a)  
(2) (a), (b), (d), (c)  
(3) (d), (a), (c), (b)  
(4) (d), (c), (a), (b)
2. वर्णकीलवक (क्रोमेटोफोर) किस क्रिया में भाग लेते हैं ?
- (1) प्रकाश संश्लेषण  
(2) वृद्धि  
(3) गति  
(4) श्वसन
3. निम्नलिखित में से कौन-सी संधि किसी प्रकार की गति की अनुमति नहीं देती ?
- (1) रेशोदार संधि  
(2) उपास्थिल संधि  
(3) सायनोवियल संधि  
(4) कंडुक खल्लिका संधि (बाल व साकिट जायंट)
4. गेहूँ के दाने में ध्रुण में एक बड़ा ढाल के आकार का बीजपत्र होता है। वह क्या कहलाता है ?
- (1) अधिकोरक  
(2) मूलांकुर चोल  
(3) स्कूटेलम  
(4) प्रांकुर चोल
5. सहप्रभावित दर्शाने वाली जीन में क्या होता है ?
- (1) एक युग्मविकल्पी दूसरे पर प्रभावी होता है।  
(2) युग्मविकल्पी एक ही गुणसूत्र पर कस कर सहलग्नित होते हैं।  
(3) वे युग्मविकल्पी जो एक दूसरे के लिए अप्रभावी होते हैं।  
(4) विषम युग्मज में दोनों युग्मविकल्पी स्वतन्त्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं।
6. निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्राक्केन्द्रकी कोशिका में नहीं पायी जाती ?
- (1) केन्द्रक आवरण  
(2) राइबोसोम  
(3) मध्यकाय (मीजोसोम)  
(4) प्लाज्मा कला

7. The term "linkage" was coined by :

- (1) T.H. Morgan
- (2) T. Boveri
- (3) G. Mendel
- (4) W. Sutton

8. The imperfect fungi which are decomposers of litter and help in mineral cycling belong to :

- (1) Deuteromycetes
- (2) Basidiomycetes
- (3) Phycmycetes
- (4) Ascomycetes

9. Match the columns and identify the correct option:

Column I		Column II	
(a) Thylakoids	(i)	Disc-shaped sacs in	
(b) Cristae	(ii)	Condensed structure	
(c) Cisternae	(iii)	Flat membranous sacs in stroma	
(d) Chromatin	(iv)	mitochondria	
(a) (b) (c) (d)			
(1) (iv) (iii) (i) (ii)			
(2) (iii) (iv) (i) (ii)			
(3) (iii) (i) (iv) (ii)			
(4) (iii) (iv) (ii) (i)			

10. Select the wrong statement :

- (1) The viroids were discovered by D.J. Ivanowski
- (2) W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized
- (3) The term 'contagium vivum fluidum' was coined by M. W. Beijerinck
- (4) Mosaic disease in tobacco and AIDS in human being are caused by viruses

11. During biological nitrogen fixation, inactivation of nitrogenase by oxygen poisoning is prevented by :

- (1) Leghaemoglobin
- (2) Xanthophyll
- (3) Carotene
- (4) Cytochrome

7. सहलग्नता (लिंकेज) शब्द किसने प्रयोग किया था ?

- (1) टी. एच. मॉर्गन
- (2) टी. बोवरी
- (3) जी. मेण्डल
- (4) डब्ल्यू. सटन

8. अपूर्ण कवक जो करकट के अपघटक हैं और खनिजों के चक्रण में सहायता करते हैं, वे किससे सम्बन्धित हैं ?

- (1) ड्यूटेरोमाइसिटीज
- (2) बैसिडीयोमाइसिटीज
- (3) फाइकोमाइसिटीज
- (4) एस्कोमाइसिटीज

9. कॉलमों के बीच मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए :

कॉलम I		कॉलम II	
(a) थायलॉकोइड	(i)	गॉल्जी उपकरण में डिस्कनुमा	
(b) क्रिस्टाए	(ii)	DNA की संघनित संरचना	
(c) सिस्टर्नाए	(iii)	स्ट्रोमा में चपटे झिल्लीमय कोष	
(d) क्रोमैटिन	(iv)	माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर्वलन	
(a) (b) (c) (d)			
(1) (iv) (iii) (i) (ii)			
(2) (iii) (iv) (i) (ii)			
(3) (iii) (i) (iv) (ii)			
(4) (iii) (iv) (ii) (i)			

10. गलत कथन को चुनिए :

- (1) विषाणुम, डी.जे. इवानोवस्की द्वारा खोजे गये थे।
- (2) डब्ल्यू. एम. स्टैन्ले ने दर्शाया की विषाणु क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं।
- (3) "contagium vivum fluidum" पद एम. डब्ल्यू. बिजेरिनेक ने दिया था।
- (4) तम्बाकू में किर्मीर रोग और मनुष्य में ए.आई.डी.एस. विषाणुओं के द्वारा होता है।

11. नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान आक्सीजन के विषैले प्रभाव से नाइट्रोजिनेज का निष्क्रियकरण किस द्वारा रोका जाता है ?

- (1) लेग्हीमोग्लोबिन
- (2) जैन्थोफिल
- (3) कैरोटिन
- (4) साइटोक्रोम

12. The species confined to a particular region and not found elsewhere is termed as :
- (1) Keystone
  - (2) Alien
  - (3) Endemic
  - (4) Rare
13. Which one of the following hormones is not involved in sugar metabolism ?
- (1) Cortisone
  - (2) Aldosterone
  - (3) Insulin
  - (4) Glucagon
14. Which of the following is not a function of the skeletal system ?
- (1) Production of erythrocytes
  - (2) Storage of minerals
  - (3) Production of body heat
  - (4) Locomotion
15. Which one of the following is not applicable to RNA ?
- (1) Complementary base pairing
  - (2) 5' phosphoryl and 3' hydroxyl ends
  - (3) Heterocyclic nitrogenous bases
  - (4) Chargaff's rule
16. Which one is a wrong statement ?
- (1) Archegonia are found in Bryophyta, Pteridophyta and Gymnosperms.
  - (2) *Mucor* has biflagellate zoospores
  - (3) Haploid endosperm is typical feature of gymnosperms
  - (4) Brown algae have chlorophyll a and c, and fucoxanthin
17. A childless couple can be assisted to have a child through a technique called GIFT. The full form of this technique is :
- (1) Gamete inseminated fallopian transfer
  - (2) Gamete intra fallopian transfer
  - (3) Gamete internal fertilization and transfer
  - (4) Germ cell internal fallopian transfer
- 12.) एक विशिष्ट क्षेत्र में सीमित रहने वाली जाति को जो अन्यत्र नहीं पायी जाती, उसे क्या कहा जाता है ?
- (1) कीस्टोन
  - (2) विदेशी
  - (3) विशेष क्षेत्री
  - (4) दुर्लभ
13. निम्नलिखित हॉर्मोनों में से कौन-सा एक हॉर्मोन शर्करा उपापचय में शामिल नहीं होता ?
- (1) कॉर्टिसोन
  - (2) ऐल्डोस्टेरोन
  - (3) इंसुलिन
  - (4) ग्लूकैगॉन
- 14.) निम्नलिखित में से कौन-सा कंकाल-तंत्र का कार्य नहीं है ?
- (1) रक्तानुओं का उत्पादन
  - (2) खनिजों का भंडारण
  - (3) देह-ऊष्मा का उत्पादन
  - (4) संचलन
15. निम्नलिखित में से कौन-सा RNA पर लागू नहीं होता ?
- (1) संपूरक बेस युग्मन
  - (2) 5' फॉस्फोरिल और 3' हाइड्रोक्सिल सिरे
  - (3) विषमचक्रीय नाइट्रोजनी बेस
  - (4) चारगॉफ़ नियम
16. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ?
- (1) स्त्रीधानी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और अनावृत्ती पादपों में पायी जाती हैं।
  - (2) म्यूकर में द्विकशाभिक चल बीजाणु होते हैं।
  - (3) अगुणित भ्रूणपोष अनावृत बीजी पादपों का प्रारूपिक लक्षण है।
  - (4) भूरे शैवाल में पर्णहरित a और c तथा फ्यूकोजेन्थीन होते हैं।
17. एक निःसंतान दंपति को GIFT नामक तकनीक के ज़रिए बच्चा प्राप्त करने में मदद की जा सकती है। इस तकनीक का पूरा नाम है :
- (1) वीर्यसेचित फैलोपी नलिका में युग्मक का स्थानांतरण
  - (2) अंतःफैलोपी नलिका में युग्मक का स्थानांतरण
  - (3) युग्मक का आंतरिक निषेचन और स्थानांतरण
  - (4) आंतरिक फैलोपी नलिका में जनन कोशिका का स्थानांतरण

18. The wings of a bird and the wings of an insect are :
- (1) homologous structures and represent divergent evolution
  - (2) analogous structures and represent convergent evolution
  - (3) phylogenetic structures and represent divergent evolution
  - (4) homologous structures and represent convergent evolution
19. Golden rice is a genetically modified crop plant where the incorporated gene is meant for biosynthesis of :
- (1) Vitamin B
  - (2) Vitamin C
  - (3) Omega 3
  - (4) Vitamin A
20. Outbreeding is an important strategy of animal husbandry because it :
- (1) helps in accumulation of superior genes. is useful in producing purelines of animals.
  - (3) is useful in overcoming inbreeding depression.
  - (4) exposes harmful recessive genes that are eliminated by selection.
21. Which one of the following hormones though synthesised elsewhere, is stored and released by the master gland ?
- (1) Antidiuretic hormone
  - (2) Luteinizing hormone
  - (3) Prolactin
  - (4) Melanocyte stimulating hormone
22. An association of individuals of different species living in the same habitat and having functional interactions is :
- (1) Ecological niche
  - (2) Biotic community
  - (3) Ecosystem
  - (4) Population
18. पक्षी के पंख और कीट के पंख
- (1) समजातीय संरचनाएँ हैं और अपसारी विकास को दर्शाती हैं।
  - (2) अनुरूप संरचनाएँ हैं और संसृत विकास को दर्शाती हैं।
  - (3) वंशावली संरचनाएँ हैं और अपसारी विकास को दर्शाती हैं।
  - (4) समजातीय संरचनाएँ हैं और संसृत विकास को दर्शाती हैं।
19. सुनहरे (गोल्डन) चावल एक आनुवंशिक रूपांतरित फसल पौधा है। इसमें निवेशित जीन किसके जैविक संश्लेषण के लिए है ?
- (1) विटामिन B
  - (2) विटामिन C
  - (3) ओमेगा 3
  - (4) विटामिन A
20. पशुपालन में बहिःप्रजनन एक महत्वपूर्ण क्रियाविधि है क्योंकि यह :
- बेहतर जीनों के एकत्रीकरण में मदद करता है।
- (2) जंतुओं के शुद्ध वंशक्रमों को उत्पन्न करने में उपयोगी है।
  - (3) अंतःप्रजनन के अवसाद को दूर करने में उपयोगी है।
  - (4) हानिकारक अप्रभावी जीनों को अनावृत कर देता है जिन्हें चयन द्वारा निष्कासित किया जा सकता है।
21. निम्नलिखित हॉर्मोनों में से कौन-सा हॉर्मोन, हालाँकि कहीं अन्य स्थान पर संश्लेषित होता है, लेकिन उसका भंडारण और निर्मोचन प्रमुख ग्रंथि द्वारा होता है ?
- (1) प्रतिमूत्रल हॉर्मोन
  - (2) ल्यूटीनाइजिंग हॉर्मोन
  - (3) प्रोलैक्टिन
  - (4) मेलानोसाइट उद्दीपक हॉर्मोन
22. एक ही पर्यावास में रह रही विभिन्न स्पीशीजों की व्यष्टियों का पारस्परिक संबंध और क्रियात्मक क्रिया करना है :
- (1) पारिस्थितिक निकेत
  - (2) जैविक समुदाय
  - (3) पारितंत्र
  - (4) समष्टि

23. In which of the following both pairs have correct combination ?

- |     |                            |                         |
|-----|----------------------------|-------------------------|
| (1) | Gaseous nutrient cycle     | Carbon and Nitrogen     |
|     | Sedimentary nutrient cycle | Sulphur and Phosphorus  |
| (2) | Gaseous nutrient cycle     | Carbon and sulphur      |
|     | Sedimentary nutrient cycle | Nitrogen and Phosphorus |
| (3) | Gaseous nutrient cycle     | Nitrogen and sulphur    |
|     | Sedimentary nutrient cycle | Carbon and Phosphorus   |
| (4) | Gaseous nutrient cycle     | Sulphur and Phosphorus  |
|     | Sedimentary nutrient cycle | Carbon and Nitrogen     |

24. Identify the correct order of organisation of genetic material from largest to smallest :

- (1) Chromosome, gene, genome, nucleotide
- (2) Genome, chromosome, nucleotide, gene
- (3) Genome, chromosome, gene, nucleotide
- (4) Chromosome, genome, nucleotide, gene

25. A jawless fish, which lays eggs in fresh water and whose ammocoetes larvae after metamorphosis return to the ocean is

- (1) *Entretetus*
- (2) *Myxine*
- (3) *Neomyxine*
- (4) *Petromyzon*

26. Industrial melanism is an example of :

- (1) Neo Darwinism
- (2) Natural selection
- (3) Mutation
- (4) Neo Lamarckism

27. Cell wall is absent in

- (1) *Aspergillus*
- (2) *Funaria*
- (3) *Mycoplasma*
- (4) *Nostoc*

28. The chitinous exoskeleton of arthropods is formed by the polymerisation of :

- (1) keratin sulphate and chondroitin sulphate
- (2) D - glucosamine
- (3) N - acetyl glucosamine
- (4) lipoglycans

23. निम्नलिखित में से किसमें दोनों युग्मों में सही संयोजन है ?

- |     |                  |                       |
|-----|------------------|-----------------------|
| (1) | गैसीय पोषण चक्र  | कार्बन और नाइट्रोजन   |
|     | अवसादी पोषण चक्र | सल्फर और फास्फोरस     |
| (2) | गैसीय पोषण चक्र  | कार्बन और सल्फर       |
|     | अवसादी पोषण चक्र | नाइट्रोजन और फास्फोरस |
| (3) | गैसीय पोषण चक्र  | नाइट्रोजन और सल्फर    |
|     | अवसादी पोषण चक्र | कार्बन और फास्फोरस    |
| (4) | गैसीय पोषण चक्र  | सल्फर और फास्फोरस     |
|     | अवसादी पोषण चक्र | कार्बन और नाइट्रोजन   |

सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे के क्रम में जीवों के आनुवंशिक पदार्थ के सही क्रम को पहचानिए।

- (1) गुणसूत्र, जीन, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड
- (2) जीनोम, गुणसूत्र, न्यूक्लियोटाइड, जीन
- (3) जीनोम, गुणसूत्र, जीन, न्यूक्लियोटाइड
- (4) गुणसूत्र, जीनोम, न्यूक्लियोटाइड, जीन

25. जबड़ाहीन मछली, जो अपने अंडे अलवण जल में देती है और जिसके ऐमोसीट लारवे कायांतरण के बाद वापस समुद्र में चले जाते हैं, है -

- (1) एप्टेट्रेस
- (2) मिक्साइन
- (3) नियोमिक्साइन
- (4) पेट्रोमाइजॉन

26. औद्योगिक अतिकृष्णता एक उदाहरण है :

- (1) नियोडार्विनिज्म का
- (2) प्राकृतिक वरण का
- (3) उत्परिवर्तन का
- (4) नियोलैमार्किज्म का

27. किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है ?


- (1) एस्पेरजिलस
- (2) फ्युनेरिया
- (3) माइकोप्लाज्मा
- (4) नॉस्टोक

28. आर्थ्रोपोंडों का काइटिनी बाह्य कंकाल किसके बहुलकीकरण से बनता है ?

- (1) कैराटिन सल्फेट और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के
- (2) D - ग्लूकोसेमिन के
- (3) N - एसिटिल ग्लूकोसेमिन के
- (4) लिपोग्लाइकेनों के

29. Filiform apparatus is characteristic feature of :
- (1) Generative cell
  - (2) Nucellar embryo
  - (3) Aleurone cell
  - (4) Synergids
30. In angiosperms, microsporogenesis and megasporogenesis
- (1) occur in anther
  - (2) form gametes without further divisions
  - (3) Involve meiosis
  - (4) occur in ovule
31. Metagenesis refers to :
- (1) Presence of different morphic forms
  - (2) Alternation of generation between asexual and sexual phases of an organism
  - (3) Occurrence of a drastic change in form during post-embryonic development
  - (4) Presence of a segmented body and parthenogenetic mode of reproduction
32. Which of the following immunoglobulins does constitute the largest percentage in human milk ?
- (1) IgD
  - (2) IgM
  - (3) IgA
  - (4) IgG
33. Destruction of the anterior horn cells of the spinal cord would result in loss of :
- (1) sensory impulses
  - (2) voluntary motor impulses
  - (3) commissural impulses
  - (4) integrating impulses
34. The cutting of DNA at specific locations became possible with the discovery of :
- (1) Restriction enzymes
  - (2) Probes
  - (3) Selectable markers
  - (4) Ligases
29. तन्तुरूप उपकरण किसका लाक्षणिक गुण है ?
- (1) जनन कोशिका
  - (2) बीजाण्डकायिक भ्रूण
  - (3) एल्यूरोन कोशिका
  - (4) सहाय कोशिकाएँ
30. आवृत बीजी पादपों में लघुबीजाणुजनन और गुरुबीजाणु जनन :
- (1) परागकोष में होता है।
  - (2) बिना अग्र विभाजन के युग्मक बनाते हैं।
  - (3) अर्द्ध सूत्र विभाजन द्वारा होते हैं।
  - (4) बीजाण्ड में होता है।
31. मेटाजेनेसिस (समैकांतरण) किसका संकेत देता है ?
- (1) विविध स्वरूपों में पाया जाना
  - (2) एक जीव की अलैंगिक और लैंगिक प्रावस्थाओं के बीच पीढ़ी - एकांतरण
  - (3) भ्रूणपश्ची परिवर्धन के दौरान स्वरूप में गंभीर परिवर्तन का पाया जाना
  - (4) एक सखंड शरीर और जनन की अनिषेकजन विधि का पाया जाना
32. निम्नलिखित में से कौन-सा घटक प्रतिरक्षाग्लोब्युलिन मानव दुग्ध में सबसे अधिक प्रतिशतता में पाया जाता है ?
- (1) IgD
  - (2) IgM
  - (3) IgA
  - (4) IgG
33. गेरुज्जु की अग्र होर्न की कोशिकाएँ यदि नष्ट हो जाएँ तो इसके परिणाम स्वरूप किसका लोप होगा
- (1) संवेदी प्रतिवर्त
  - (2) ऐच्छिक प्रेरक प्रतिवर्त
  - (3) संधायी प्रतिवर्त
  - (4) समावेशी (इंटीग्रेटिंग) प्रतिवर्त
34. डी.एन.ए. का विशिष्ट स्थानों पर काट देना किसके आविष्कार से संभव हुआ ?
- (1) रेस्ट्रिक्शन एंजाइम
  - (2) प्रोब्स
  - (3) सलेक्टेबल मार्करस्
  - (4) लाइगेज

35. In the following human pedigree, the filled symbols represent the affected individuals. Identify the type of given pedigree.



- (i) Autosomal dominant  
(2) X-linked recessive  
(3) Autosomal recessive  
(4) X-linked dominant

36. A colour blind man marries a woman with normal sight who has no history of colour blindness in her family. What is the probability of their grandson being colour blind?

- (1) 0.5  
(2) 1  
(3) Nil  
(4) 0.25

37. Flowers are unisexual in:

- (1) Pea  
(2) Cucumber  
(3) China rose  
(4) Onion

38. Roots play insignificant role in absorption of water in:

- (1) Sunflower  
(2) Pistia  
(3) Pea  
(4) Wheat


39. Balbiani rings are sites of:

- (1) Lipid synthesis  
(2) Nucleotide synthesis  
(3) Polysaccharide synthesis  
(4) RNA and protein synthesis

40. Which of the following pairs is not correctly matched?

Mode of reproduction	Example
(1) Offset	Water hyacinth
(2) Rhizome	Banana
(3) Binary fission	Sargassum
(4) Conidia	Penicillium

निम्नलिखित मानव वंशावली में, भरे हुए संकेत प्रभावित व्यक्ति का निरूपण करते हैं। दी गयी वंशावली के प्रकार व पहचानिए :



- (1) अलिंगसूत्री प्रभावी  
(2) X-सहलग्न अप्रभावी  
(3) अलिंगसूत्री अप्रभावी  
(4) X-सहलग्न प्रभावी

36. एक वर्णांध व्यक्ति सामान्य दृष्टि वाली एक ऐसी महिला से विवाह करता है जिसके परिवार का कोई भी सदस्य वर्णांध नहीं है। इस दंपति के पोतों के वर्णांध होने की क्या संभावना है?

- (1) 0.5  
(2) 1  
(3) शून्य  
(4) 0.25

37. किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं?

- (1) मटर  
(2) खीरा  
(3) चायना रोज  
(4) प्याज

किसमें जड़ें, जल शोषण में नगण्य कार्य करती हैं?

- (1) सूर्यमुखी  
(2) पिस्तिया  
(3) मटर  
(4) गेहूँ

39. बाल्बियानी वलय स्थल हैं

- (1) लिपिड संश्लेषण के  
(2) न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण के  
(3) पोलिसैकैराइड संश्लेषण के  
(4) RNA और प्रोटीन संश्लेषण के

40. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

प्रजनन विधि	उदाहरण
(1) भूस्तारी	जल हायसिंध
(2) प्रकन्द	केला
(3) द्विखंडन	सारंगासम
(4) कोनिडिया	पैनिसिलियम



41. Ectopic pregnancies are referred to as :
- (1) Pregnancies with genetic abnormality.
  - (2) Implantation of embryo at site other than uterus.
  - (3) Implantation of defective embryo in the uterus
  - (4) Pregnancies terminated due to hormonal imbalance.
42. Choose the wrong statement :
- (1) *Penicillium* is multicellular and produces antibiotics
  - (2) *Neurospora* is used in the study of biochemical genetics
  - (3) Morels and truffles are poisonous mushrooms
  - (4) Yeast is unicellular and useful in fermentation
43. The function of the gap junction is to :
- (1) performing cementing to keep neighbouring cells together.
  - (2) facilitate communication between adjoining cells by connecting the cytoplasm for rapid transfer of ions, small molecules and some large molecules.
  - (3) separate two cells from each other.
  - (4) stop substance from leaking across a tissue.
44. Axile placentation is present in :
- (1) *Dianthus*
  - (2) Lemon
  - (3) Pea
  - (4) *Argemone*
45. Which of the following are not membrane - bound ?
- (1) Vacuoles
  - (2) Ribosomes
  - (3) Lysosomes
  - (4) Mesosomes
46. In his classic experiments on pea plants, Mendel did not use :
- (1) Seed colour
  - (2) Pod length
  - (3) Seed shape
  - (4) Flower position
41. अस्थानिक गर्भताएँ जानी जाती हैं :
- (1) गर्भताएँ जिनमें आनुवंशिक विषमताएँ हो।
  - (2) गर्भाशय के अतिरिक्त भ्रूण का किसी अन्य स्थान पर अंतर्रोपण।
  - (3) दोषयुक्त भ्रूण का गर्भाशय में अंतर्रोपण।
  - (4) गर्भताएँ जो हॉर्मोन के असन्तुलन होने से अंत हो जाती हैं।
42. गलत कथन को चुनिए :
- (1) *पैनिशीलिअम* बहुकोशिकीय है और प्रतिजैविक उत्पादित करता है।
  - (2) *न्यूरोस्पोरा* को जैवरसायन अनुवांशिकी के अध्ययन में उपयोग किया जाता है
  - (3) मॉरेल और ट्रूफेल विषैले छत्रक हैं।
  - (4) यीस्ट एककोशिकीय है और किण्वन में उपयोगी है।
43. गेप - जंक्शन का कार्य है :
- (1) पड़ोसी कोशिकाओं को परस्पर जोड़े रखने के लिए।
  - (2) पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संप्रेषण में मदद करने के लिए, कोशिकाद्रव्य को जोड़े रखने के लिए ताकि आयन, छोटे अणु और कुछ बड़े अणु तीव्र गति से स्थानांतरित हो सकें।
  - (3) दो कोशिकाओं को एक दूसरे से पृथक् रखने के लिए।
  - (4) किसी पदार्थ को ऊतक के पार निकलने से रोकने के लिए।
44. स्तंभीय बीजाण्ड न्यास किसमें होता है ?
- (1) *डाइएन्थस*
  - (2) नींबू
  - (3) मटर
  - (4) *आर्जैमोन*
45. निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से नहीं घिरे रहते ?
- (1) रसधानियाँ
  - (2) राइजोसोम
  - (3) लाइसोसोम
  - (4) मध्यकाय (मीजोसोम)
46. मटर के पौधों पर अपने आदर्श प्रयोग में मेंडल ने किसका उपयोग नहीं किया ?
- (1) बीज का रंग
  - (2) फली की लम्बाई
  - (3) बीज का आकार
  - (4) पुष्प की स्थिति

47. During ecological succession :
- (1) the gradual and predictable change in species composition occurs in a given area
  - (2) the establishment of a new biotic community is very fast in its primary phase.
  - (3) the numbers and types of animals remain constant.
  - (4) the changes lead to a community that is in near equilibrium with the environment and is called pioneer community
48. The body cells in cockroach discharge their nitrogenous waste in the haemolymph mainly in the form of :
- (1) Ammonia
  - (2) Potassium urate
  - (3) Urea
  - (4) Calcium carbonate
49. Which of the following biomolecules does have a phosphodiester bond ?
- (1) Fatty acids in a diglyceride
  - (2) Monosaccharides in a polysaccharide
  - (3) Amino acids in a polypeptide
  - (4) Nucleic acids in a nucleotide
50. The UN conference of Parties on climate change in the year 2012 was held at :
- (1) Durban
  - (2) Doha
  - (3) Lima
  - (4) Warsaw
51. Arrange the following events of meiosis in correct sequence :
- (a) Crossing over
  - (b) Synapsis
  - (c) Terminalisation of chiasmata
  - (d) Disappearance of nucleolus
- (1) (b), (a), (d), (c)
  - (2) (b), (a), (c), (d)
  - (3) (a), (b), (c), (d)
  - (4) (b), (c), (d), (a)
47. पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के दौरान :
- (1) किसी स्पीशीज की संघटना में क्रमिक और पहले से बताये जा सकने वाले परिवर्तन किसी एक क्षेत्र में होते हैं।
  - (2) इसकी प्राथमिक प्रावस्था में नया जीवीय समुदाय बहुत तीव्र गति से स्थापित होता है।
  - (3) जंतुओं की संख्या और किस्में स्थिर रहती हैं।
  - (4) उस समुदाय में होने वाले परिवर्तनों के कारण जो पर्यावरण के साम्य के समीप होता है, पुरोगामी समुदाय कहलाती है।
48. तिलचट्टे की शरीर-कोशिकाएँ अपने इट्रोजनी अपशिष्ट को हीमोलिम्फ में प्रधान रूप से इस रूप में डाल देते हैं :
- (1) अमोनिया
  - (2) पोटैशियम यूरेट
  - (3) यूरिया
  - (4) कैल्सियम कार्बोनेट
49. निम्नलिखित जैवअणुओं में से किस में फॉस्फोडिइस्टर बंध होता है ?
- (1) एक डाईग्लिसराइड में वसा अम्ल
  - (2) एक पोलिसैकैराइड में मोनोसैकैराइड
  - (3) एक पोलिपेप्टाइड में अमीनो अम्ल
  - (4) एक न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लिक अम्ल
50. वर्ष 2012 में जलवायु परिवर्तन पर दुर्लोक का यु.एन. सम्मेलन कहाँ हुआ था ?
- (1) डरबन
  - (2) दोहा
  - (3) लीमा
  - (4) वारसा
51. अर्धसूत्री विभाजन की घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए :
- (a) क्रॉसिंग ओवर (जीन विनिमय) ②
  - (b) सिनैप्सिस (सूत्रयुग्मन) ①
  - (c) काएज्मेटा का अंत ③
  - (d) केंद्रिका का अदृश्य होना ④
- (1) (b), (a), (d), (c)
  - (2) (b), (a), (c), (d)
  - (3) (a), (b), (c), (d)
  - (4) (b), (c), (d), (a)

52. Root pressure develops due to:

- (1) Active absorption
- (2) Low osmotic potential in soil
- (3) Passive absorption
- (4) Increase in transpiration

53. Which one of the following animals has two separate circulatory pathways?

- (1) Frog
- (2) Lizard
- (3) Whale
- (4) Shark

54. Which of the following events is **not** associated with ovulation in human female?

- (1) Decrease in estradiol
- (2) Full development of Graafian follicle
- (3) Release of secondary oocyte
- (4) LH surge

55. Most animals that live in deep oceanic waters are:

- (1) primary consumers
- (2) secondary consumers
- (3) tertiary consumers
- (4) detritivores

56. If you suspect major deficiency of antibodies in a person, to which of the following would you look for confirmatory evidence?

- (1) Fibrinogen in plasma
- (2) Serum albumins
- (3) Haemocytes
- (4) Serum globulins

57. The structures that help some bacteria to attach to rocks and/or host tissues are:

- (1) Rhizoids
- (2) Fimbriae
- (3) Mesosomes
- (4) Holdfast

52. मूलदाब किसकी वजह से विकसित होता है ?

- (1) सक्रिय अवशोषण के कारण
- (2) मृदा में निम्न परासरणी विभव के कारण
- (3) निष्क्रिय अवशोषण के कारण
- (4) वाष्पोत्सर्जन में बढ़ाव के कारण

53. निम्नलिखित जंतुओं में से किस एक में दो अलग-अलग परिसंचारी पथ होते हैं ?

- (1) मेंढक
- (2) छिपकली
- (3) ह्वेल
- (4) शार्क

54. निम्नलिखित घटनाओं में से कौन-सी घटना स्त्री में अंडोत्सर्जन से संबंधित नहीं है ?

- (1) ईस्ट्रेडिओल में कमी
- (2) ग्राफी पुटक का पूर्ण विकास
- (3) द्वितीयक अंडक का निर्माण
- (4) LH प्रवाह (LH सर्ज)

55. गहरे समुद्री पानी में रहते हैं वे होते हैं :

- (1) प्राथमिक उपभोक्ता
- (2) माध्यमिक उपभोक्ता
- (3) तृतीयक उपभोक्ता
- (4) अपरदभोजी

56. यदि आप किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षियों की गंभीर कमी का अनुमान लगा रहे हैं, तो आप पुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किस से प्रमाण प्राप्त करेंगे ?

- (1) प्लाज्मा में फ़िब्रिनोजिन
- (2) सीरम एल्ब्युमिन
- (3) हीमोसाइट
- (4) सीरम ग्लोब्युलिन

57. वह संरचना जो कुछ जीवाणुओं को चट्टानों या पोषी ऊतक से संयोजी होने में सहायता करती है, क्या है ?

- (1) मूलाभास
- (2) झालर
- (3) मीजोसोम
- (4) होल्डफ़ास्ट

58. Increase in concentration of the toxicant at successive trophic levels is known as
- (1) Biomagnification
  - (2) Biodeterioration
  - (3) Biotransformation
  - (4) Biogeochemical cycling
59. Body having meshwork of cells, internal cavities lined with food filtering flagellated cells and indirect development are the characteristics of phylum:
- (1) Coelenterata
  - (2) Porifera
  - (3) Mollusca
  - (4) Protozoa
60. The oxygen evolved during photosynthesis comes from water molecules. Which one of the following pairs of elements is involved in this reaction?
- (1) Manganese and Chlorine
  - (2) Manganese and Potassium
  - (3) Magnesium and Molybdenum
  - (4) Magnesium and Chlorine
61. The primary dentition in human differs from permanent dentition in not having one of the following type of teeth:
- (1) Canine
  - (2) Premolars
  - (3) Molars
  - (4) Incisors
62. Coconut water from a tender coconut is:
- (1) Immature embryo
  - (2) Free nuclear endosperm
  - (3) Innermost layers of the seed coat
  - (4) Degenerated nucellus
63. Which of the following layers in an antral follicle is acellular?
- (1) Granulosa
  - (2) Theca interna
  - (3) Stroma
  - (4) Zona pellucida
58. आनुक्रमिक पोषी स्तर पर विष की सांद्रता बढ़ने को क्या कहते हैं?
- (1) जैव आवर्धन
  - (2) जैव अपकर्षण
  - (3) जैव रूपान्तरण
  - (4) जैव भूसायनिक चक्र
59. शरीर में कोशिकाओं का जाल होना, खाद्य पदार्थ का निर करने वाली कशाभिकामय कोशिकाओं से अस्तरित गुहाओं का पाया जाना, तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन का होना किस फ़ाइलम की विशिष्टताएँ हैं?
- (1) सीलेन्टरेटा
  - (2) पोरिफेरा
  - (3) मौलस्का
  - (4) प्रोटोजोआ
60. प्रकाश संश्लेषण के दौरान निष्काशित आक्सीजन जल अणु से आती है। इस अभिक्रिया में निम्नलिखित तत्वों का कौन एक युग्म शामिल है?
- (1) मैंगनीज और क्लोरीन
  - (2) मैंगनीज और पोटेशियम
  - (3) मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम
  - (4) मैग्नीशियम और क्लोरीन
61. मानव में प्राथमिक दंतविन्यास स्थायी दंतविन्यास से इस नाते भिन्न होता है कि प्राथमिक दंतविन्यास में निम्नलिखित कौन से प्रकार के दांत नहीं होते?
- (1) रदनक
  - (2) अग्रचर्वणक
  - (3) चर्वणक
  - (4) कृतक
62. कच्चे नारियल का नारियल पानी क्या है?
- (1) अपरिपक्व भ्रूण
  - (2) मुक्त केन्द्रकी भ्रूणपोष
  - (3) बीज चोल की सबसे अंदर वाली सतहें
  - (4) अपभ्रष्ट बीजाण्डकाय
63. एन्ट्रमी (antral) पुटक में निम्नलिखित में से कौन-सी अकोशिकीय होती है?
- (1) ग्रैनुलोसा (कणिकीय)
  - (2) थीका इंटरना (अंतर प्रावरक)
  - (3) स्ट्रोमा (पीठिका)
  - (4) जोना पेल्ल्यूसिडा (पारदर्शी अंडावरण)

64. The introduction of t-DNA into plants involves :
- (1) Infection of the plant by *Agrobacterium tumefaciens*
  - (2) Altering the pH of the soil, then heat-shocking the plants
  - (3) Exposing the plants to cold for a brief period
  - (4) Allowing the plant roots to stand in water

In which group of organisms the cell walls form two thin overlapping shells which fit together ?

- (1) Chrysophytes
  - (2) Euglenoids
  - (3) Dinoflagellates
  - (4) Slime moulds
66. Human urine is usually acidic because :
- (1) the sodium transporter exchanges one hydrogen ion for each sodium ion, in peritubular capillaries.
  - (2) excreted plasma proteins are acidic.
  - (3) potassium and sodium exchange generates acidity.
  - (4) hydrogen ions are actively secreted into the filtrate.

67. In photosynthesis, the light-independent reactions take place at :
- (1) Thylakoid lumen
  - (2) Photosystem I
  - (3) Photosystem II
  - (4) Stromal matrix

68. In mammalian eye, the 'fovea' is the center of the visual field, where :
- (1) high density of cones occur, but has no rods.
  - (2) the optic nerve leaves the eye.
  - (3) only rods are present.
  - (4) more rods than cones are found.

64. पादपों में टी-डी.एन.ए. (t-DNA) के प्रवेश से क्या होता है ?
- (1) पादप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशिएन्स द्वारा संक्रमण होता है।
  - (2) मृदा के pH में बदलाव आता है और पादप में ताप प्रभाव होता है।
  - (3) पादपों को थोड़े अल्पकाल के लिए शीत में उद्भासित करना पड़ता है।
  - (4) पादप मूलों को जल में खड़े रहने देता है।

65. जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतली अतिव्यापी कवचों की बनी होती है जो एकसाथ आसंजित होती हैं ?
- (1) क्राइसोफाइट
  - (2) यूग्लीनॉइड
  - (3) डायनोफ्लैजिलेट
  - (4) अवपक कवक

66. मानव मूत्र आमतौर से अम्लीय होता है क्योंकि :
- (1) परिनलिकाकार कोशिकाओं में, सोडियम ट्रांसपोर्टर प्रत्येक सोडियम आयन का विनिमय एक हाइड्रोजन आयन से कर देता है।
  - (2) उत्सर्जित प्लाज्मा प्रोटीन अम्लीय होती हैं।
  - (3) पोटेशियम और सोडियम विनिमय में अम्लता पैदा हो जाती है।
- हाइड्रोजन आयन सक्रिय रूप से निर्यंद से संचित हो जाते हैं।

67. प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश-स्वतन्त्र अभिक्रियाएँ कहाँ होती हैं ?
- (1) थाइलेकोइड अवकाशिका
  - (2) प्रकाशतन्त्र - I
  - (3) प्रकाशतन्त्र - II
  - (4) पीएनकेय आधारित

68. स्तनधारी प्राणी के नेत्र में 'खात' (फोविया) दृश्य क्षेत्र का केन्द्र है जहाँ :
- (1) शंकुओं की सघनता अधिक होती है, लेकिन शलाकाएँ नहीं होती।
  - (2) चाक्षुष तंत्रिका नेत्र से बाहर निकलती है।
  - (3) केवल शलाकाएँ होती हैं।
  - (4) शंकुओं की अपेक्षा शलाकाएँ अधिक होती हैं।

69. The DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is called
- (1) Transformer
  - (2) Vector
  - (3) Template
  - (4) Carrier
70. Pick up the wrong statement :
- (1) Cell wall is absent in Animalia
  - (2) Protista have photosynthetic and heterotrophic modes of nutrition
  - (3) Some fungi are edible
  - (4) Nuclear membrane is present in Monera
71. Among china rose, mustard, brinjal, potato, guava, cucumber, onion and tulip, how many plants have superior ovary ?
- (1) Five
  - (2) Six
  - (3) Three
  - (4) Four
72. Name the pulmonary disease in which alveolar surface area involved in gas exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar walls.
- (1) Pleurisy
  - (2) Emphysema
  - (3) Pneumonia
  - (4) Asthma
73. A column of water within xylem vessels of tall trees does not break under its weight because of :
- (1) Dissolved sugars in water
  - (2) Tensile strength of water
  - (3) Lignification of xylem vessels
  - (4) Positive root pressure
74. Acid rain is caused by increase in the atmospheric concentration of :
- (1) SO<sub>2</sub> and NO<sub>2</sub>
  - (2) SO<sub>3</sub> and CO
  - (3) CO<sub>2</sub> and CO
  - (4) O<sub>3</sub> and dust
69. उस डी एन ए अणु को क्या कहते हैं जिसमें बलॉमन के रुचि वाली जीन को समाकलित किया जाता है ?
- (1) रूपान्तरक
  - (2) संवाहक
  - (3) रूपदा
  - (4) वाहक
70. गलत कथन को चुनिए :
- (1) एनिमेलिया में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है।
  - (2) प्रोटिस्टा में पोषण की विधियां प्रकाशसंश्लेषणी विषमभोजी होती हैं।
  - (3) कुछ कवक खाने योग्य होते हैं।
  - (4) मोनेरा में केन्द्रक कला उपस्थित होती है।
71. गुड़हल, सरसों, बैंगन, आलू, अमरुद, खीरा, प्याज और में से कितनों में ऊर्ध्ववर्ती अण्डाशय है ?
- (1) पांच
  - (2) छः
  - (3) तीन
  - (4) चार
72. उस फुफ्फुसी रोग का नाम बताइए जिसमें कृषिकीय भित्तियों क्षत हो जाने के कारण गैस-विनिमय में शामिल सतही क्षेत्र बहुत अधिक कम हो जाता है।
- (1) प्लूरिसी
  - (2) वातस्फीति
  - (3) न्यूमोनिया
  - (4) अस्थमा
73. एक लम्बे वृक्ष की दारू वाहिकाओं में जल का स्तम्भ अपने भार से नहीं टूटता। इसका कारण है :
- (1) जल में घुलित शर्करा
  - (2) जल की तनन शक्ति
  - (3) दारू वाहिकाओं का लिग्निनकरण
  - (4) धनात्मक मूल दाब
74. अम्ल वर्षा वातावरण में किसकी सांद्रता के अधिकता के कारण होती है ?
- (1) SO<sub>2</sub> और NO<sub>2</sub>
  - (2) SO<sub>3</sub> और CO
  - (3) CO<sub>2</sub> और CO
  - (4) O<sub>3</sub> और धूल

75. The enzyme that is not present in succus entericus is :

- (1) maltase
- (2) nucleases
- (3) nucleosidase
- (4) lipase

76. In which of the following interactions both partners are adversely affected ?

- (1) Competition
- (2) Predation
- (3) Parasitism
- (4) Mutualism

77. Match the following list of microbes and their importance :

- |  |  |
|--|--|
| (a) <i>Sacharomyces cerevisiac</i>     | (i) Production of immunosuppressive agents           |
| (b) <i>Monascus purpureus</i>          | (ii) Ripening of Swiss cheese                        |
| (c) <i>Trichoderma polysporum</i>      | (iii) Commercial production of ethanol               |
| (d) <i>Propionibacterium sharmanii</i> | (iv) Production of blood-cholesterol lowering agents |

- |           |       |      |       |
|-----------|-------|------|-------|
| (a)       | (b)   | (c)  | (d)   |
| (1) (iii) | (iv)  | (i)  | (ii)  |
| (2) (iv)  | (iii) | (ii) | (i)   |
| (3) (iv)  | (ii)  | (i)  | (iii) |
| (4) (iii) | (i)   | (iv) | (ii)  |

A pleiotropic gene :

- (1) is expressed only in primitive plants.
- (2) is a gene evolved during Pliocene.
- (3) controls a trait only in combination with another gene
- (4) controls multiple traits in an individual.

79. A protoplast is a cell

- (1) without plasma membrane
- (2) without nucleus
- (3) undergoing division
- (4) without cell wall

75. ह एंजाइम जो सक्स एंटेरिकस (आंत्र रस) में मौजूद नहीं होता ?

- (1) माल्टेज
- (2) न्यूक्लिऐज
- (3) न्यूक्लिओसिडेज
- (4) लाइपेज

76. निम्नलिखित में से किस पारस्परिक क्रिया में दोनों संगी प्रतिकूल रूप में प्रभावित होते हैं ?

- (1) स्पर्धा
- (2) परभक्षण
- (3) परजीविता
- (4) सहोपकारिता

77. सूक्ष्मजीवों की और उनके महत्व की निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिए :

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| (a) सैकैरोमाइसीज                 | (i) प्रतिरक्षी संदयक कारकों का उत्पादन    |
| (b) मोनैस्कस प्यूरीरियस          | (ii) स्विस् चीज को पकाना                  |
| (c) ट्राइकोडर्मा पोर्रीरगोरम     | (iii) इथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन        |
| (d) प्रोपिऑनि बैक्टीरियम शरमानिई | (iv) रीफर में कोलेस्ट्रॉल कम करने का कारक |

- |           |       |      |       |
|-----------|-------|------|-------|
| (a)       | (b)   | (c)  | (d)   |
| (1) (iii) | (iv)  | (i)  | (ii)  |
| (2) (iv)  | (iii) | (ii) | (i)   |
| (3) (iv)  | (ii)  | (i)  | (iii) |
| (4) (iii) | (i)   | (iv) | (ii)  |

78. एक बहुप्रभाविक जीन :

- (1) केवल अल्पकालीन पौधों में अभिव्यक्त होता है।
- (2) अत्यन्त नूतन काल में विकसित हुआ जीन।
- (3) अन्य जीन से संयोजित होकर केवल एक लक्षण को नियन्त्रित करता है।
- (4) एक व्यष्टि में बहुविध लक्षणों को नियन्त्रित करता है।

79. जीवद्रव्यक एक कोशिका है :

- (1) प्रद्रव्य झिल्ली रहित
- (2) केन्द्रक रहित
- (3) विभाजित होती हुई
- (4) कोशिका भित्ति रहित

80. Which of the following are most suitable indicators of  $SO_2$  pollution in the environment ?
- (1) Lichens
  - (2) Conifers
  - (3) Algae
  - (4) Fungi
81. Grafted kidney may be rejected in a patient due to :
- (1) Humoral immune response
  - (2) Cell-mediated immune response
  - (3) Passive immune response
  - (4) Innate immune response
82. Which one of the following fruits is parthenocarpic?
- (1) Brinjal
  - (2) Apple
  - (3) Jackfruit
  - (4) Banana
83. Which of the following diseases is caused by a protozoan ?
- (1) Syphilis
  - (2) Influenza
  - (3) Babesiosis
  - (4) Blastomycosis
84. In human females, meiosis-II is not completed until ?
- (1) puberty
  - (2) fertilization
  - (3) uterine implantation
  - (4) birth
85. Male gametophyte in angiosperms produces :
- (1) Two sperms and a vegetative cell
  - (2) Single sperm and a vegetative cell
  - (3) Single sperm and two vegetative cells
  - (4) Three sperms
80. निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण में  $SO_2$  प्रदूषण का प्रामाण्य संकेतक है ?
- (1) लाइकेन
  - (2) शंकुधारी
  - (3) शैवाल
  - (4) कवक
81. किसी रोगी में प्रत्यारोपित वृक्क (किडनी) को अस्वीकार कारण किया जा सकता है ?
- (1) त्रिदोशल (ह्यूमोरल) प्रतिरक्षा अनुक्रिया
  - (2) कोशिका-माध्यत प्रतिरक्षा अनुक्रिया
  - (3) निष्क्रिय प्रतिरक्षा अनुक्रिया
  - (4) सहज प्रतिरक्षा अनुक्रिया
82. निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेकफलनीक है ?
- (1) बैंगन
  - (2) सेब
  - (3) कटहल
  - (4) कला
83. निम्नलिखित में से कौन-सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है
- (1) सिफलिस
  - (2) इंप्लूएजा
  - (3) बैबेसिओसिस
  - (4) ब्लास्टोमाइकोसिस
84. मानव मादाओं में, अर्धसूत्रीविभाजन-II किसके पूर्ण हो जाने पर ही होता है ?
- (1) यौवनारंभ
  - (2) निषेचन
  - (3) गर्भाशय में अंत स्थापन
85. आवृत बीजी पादपों में नर युग्मक क्या बनाता है ?
- (1) दो शुक्राणु और एक कायिक कोशिका
  - (2) एक शुक्राणु और एक कायिक कोशिका
  - (3) एक शुक्राणु और दो कायिक कोशिकाएँ
  - (4) तीन शुक्राणु



86. Doctors use stethoscope to hear the sounds produced during each cardiac cycle. The second sound is heard when :
- (1) AV valves open up
  - (2) Ventricular walls vibrate due to gushing in of blood from atria
  - (3) Semilunar valves close down after the blood flows into vessels from ventricles
  - (4) AV node receives signal from SA node
87. Auxin can be bioassayed by :
- (1) Avena coleoptile curvature
  - (2) Hydroponics
  - (3) Potometer
  - (4) Lettuce hypocotyl elongation
88. Satellite DNA is important because it :
- (1) codes for proteins needed in cell cycle.
  - (2) shows high degree of polymorphism in population and also the same degree of polymorphism in an individual, which is heritable from parents to children.
  - (3) does not code for proteins and is same in all members of the population.
  - (4) codes for enzymes needed for DNA replication.
89. Cellular organelles with membranes are
- (1) nuclei, ribosomes and mitochondria
  - (2) chromosomes, ribosomes and endoplasmic reticulum
  - (3) endoplasmic reticulum, ribosomes and nuclei
  - (4) lysosomes, Golgi apparatus and mitochondria
90. Eutrophication of water bodies leading to killing of fishes is mainly due to non-availability of :
- (1) food
  - (2) light
  - (3) essential minerals
  - (4) oxygen
86. प्रत्येक हृद् चक्र के दौरान उत्पन्न होने वाली ध्वनि - तरंगों को सुनने के लिए चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। दूसरी ध्वनि उस समय सुनाई देती है जब :
- (1) AV कपाट खुल जाते हैं।
  - (2) अलिंदों से रुधिर के बलपूर्वक निलय में आने के कारण निलयी भित्तियों में कंपन होने लगता है।
  - (3) निलयों से वाहिकाओं में रुधिर के बहने के बाद अर्धचंद्राकार कपाट बन्द हो जाते हैं।
  - (4) AV पर्वसंधि SA पर्वसंधि से संकेत प्राप्त करती है।
87. आक्सीन को किसके द्वारा जैव आमानित किया जा सकता है ?
- (1) एवीना प्राकुर चोल के वक्रण से
  - (2) जलसंवर्धन से
  - (3) पोटोमीटर से
  - (4) लेट्यूस बीजपत्राधार के लम्बन से
88. अनुषंगी DNA महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह :
- (1) उन प्रोटीनों के लिए कोडन करता है जिनकी कोशिका - चक्र के लिए जरूरत होती है।  
समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करता है जिसकी वंशागति जनकों से बच्चों तक हो सकती है।
  - (2) प्रोटीनों के लिए कोडन नहीं करता, और समष्टि के सभी सदस्यों में ऐसा ही होता है।
  - (3) उन एंजाइमों के लिए कोडन करता है जिनकी DNA के प्रतिकृतियन के लिए जरूरत होती है।
89. झिल्लीयुक्त कोशिकीय अंगक है
- (1) केन्द्रक, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया
  - (2) गुणसूत्र, राइबोसोम और एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम
  - (3) एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और केन्द्रक
  - (4) लायसोसोम, गॉल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया
90. जलीय निकायों का यूट्रोफिकेशन जिसके कारण मछलियाँ मरने लगती हैं, किसकी उपलब्धता न होने के कारण होता है ?
- (1) भोजन
  - (2) प्रकाश
  - (3) आवश्यक खनिज
  - (4) ऑक्सीजन

91. The cylindrical tube of a spray pump has radius  $R$ , one end of which has  $n$  fine holes, each of radius  $r$ . If the speed of the liquid in the tube is  $V$ , the speed of the ejection of the liquid through the holes is :


(1)  $\frac{VR^2}{n^2r^2}$

(2)  $\frac{VR^2}{nr^2}$

(3)  $\frac{VR^2}{n^3r^2}$

(4)  $\frac{V^2R}{nr}$

92. Point masses  $m_1$  and  $m_2$  are placed at the opposite ends of a rigid rod of length  $L$ , and negligible mass. The rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it. The position of point  $P$  on this rod through which the axis should pass so that the work required to set the rod rotating with angular velocity  $\omega_0$  is minimum, is given by :



(1)  $x = \frac{m_1L}{m_1 + m_2}$

(2)  $x = \frac{m_1}{m_2}L$

(3)  $x = \frac{m_2}{m_1}L$

(4)  $x = \frac{m_2L}{m_1 + m_2}$

93. A proton and an alpha particle both enter a region of uniform magnetic field  $B$ , moving at right angles to the field  $B$ . If the radius of circular orbits for both the particles is equal and the kinetic energy acquired by proton is 1 MeV, the energy acquired by the alpha particle will be

(1) 4 MeV

(2) 0.5 MeV

(3) 1.5 MeV

(4) 1 MeV

91. किसी स्प्रै-पम्प की बेलनाकार नली की त्रिज्या  $R$  है। इस के सिरे पर  $n$  सूक्ष्म छिद्र हैं, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या यदि, नली में द्रव की चाल  $V$  है तो, इन छिद्रों से बाहर निकलने हुए द्रव की चाल होगी :


(1)  $\frac{VR^2}{n^2r^2}$

(2)  $\frac{VR^2}{nr^2}$

(3)  $\frac{VR^2}{n^3r^2}$

(4)  $\frac{V^2R}{nr}$

92. किसी दृढ़ छड़ की लम्बाई  $L$  है और इसका द्रव्यमान नगण्य इसके दो विपरीत सिरों पर क्रमशः  $m_1$  तथा  $m_2$  द्रव्यमान के बिन्दु-पिंड रखे गये हैं। इस छड़ को उसके स्वयं के लम्ब अक्ष के परितः घूर्णन कराना है, जो छड़ पर स्थित किसी बिन्दु से होकर गुजरती है (आरेख देखिये)। तो, बिन्दु  $P$  की स्थिति जिसके लिये छड़ को कोणीय वेग  $\omega_0$  से घूर्णन कराने लिये आवश्यक कार्य न्यूनतम होगा, है



(1)  $x = \frac{m_1L}{m_1 + m_2}$

(2)  $x = \frac{m_1}{m_2}L$

(3)  $x = \frac{m_2}{m_1}L$

(4)  $x = \frac{m_2L}{m_1 + m_2}$

93. एक प्रोटॉन तथा एक ऐल्फा कण, किसी एक समान चुम्बकी क्षेत्र  $B$  के प्रदेश में प्रवेश करते हैं। इनकी गति की दिशा क्षेत्र के लम्बवत् है। यदि, दोनों कणों के लिये, वृत्ताकार कक्षाओं व त्रिज्या आपस में बराबर है और प्रोटॉन द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा 1 MeV है तो, ऐल्फा कण द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी :


(1) 4 MeV

(2) 0.5 MeV

(3) 1.5 MeV

(4) 1 MeV

94. A plank with a box on it at one end is gradually raised about the other end. As the angle of inclination with the horizontal reaches  $30^\circ$ , the box starts to slip and slides 4.0 m down the plank in 4.0 s. The coefficients of static and kinetic friction between the box and the plank will be, respectively :



- (1) 0.6 and 0.6  
 (2) 0.6 and 0.5  
 (3) 0.5 and 0.6  
 (4) 0.4 and 0.3

95. An ideal gas is compressed to half its initial volume by means of several processes. Which of the process results in the maximum work done on the gas ?

- (1) Adiabatic  
 (2) Isobaric  
 (3) Isochoric  
 (4) Isothermal


96. A ball is thrown vertically downwards from a height of 20 m with an initial velocity  $v_0$ . It collides with the ground, loses 50 percent of its energy in collision and rebounds to the same height. The initial velocity  $v_0$  is : (Take  $g = 10 \text{ ms}^{-2}$ )

- (1)  $14 \text{ ms}^{-1}$   
 (2)  $20 \text{ ms}^{-1}$   
 (3)  $28 \text{ ms}^{-1}$   
 (4)  $10 \text{ ms}^{-1}$

97. In the spectrum of hydrogen, the ratio of the longest wavelength in the Lyman series to the longest wavelength in the Balmer series is :

- (1)  $\frac{4}{9}$   
 (2) 4  
 (3)  $\frac{27}{5}$   
 (4) 27

94. किसी तख्ते के एक सिरे पर एक बक्सा रखा है। तख्ते के उस सिरे को धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठाया जाता है। तख्ते के क्षैतिज से  $30^\circ$  कोण बनाने पर, बक्सा नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ करता है और 4.0 s में 4.0 m दूरी तय कर लेता है। तो, बक्से तथा तख्ते के बीच स्थैतिक तथा गतिक घर्षण गुणांकों का क्रमशः मान होगा :



- (1) 0.6 तथा 0.6  
 (2) 0.6 तथा 0.5  
 (3) 0.5 तथा 0.6  
 (4) 0.4 तथा 0.3

95. किसी आदर्श गैस को कई प्रक्रमों द्वारा, इसके प्रारंभिक आयतन के आधे आयतन तक संपीडित किया जाता है। किस प्रक्रम में गैस पर अधिकतम कार्य करना होगा ?

- (1) रुद्धोष्म में  
 (2) समदाबी में  
 (3) समआयतनिक में  
 (4) समतापी में


96. एक गोला 20 m को ऊँचाई से, प्रारंभिक वेग  $v_0$  द्वारा सीधे (ऊर्ध्वाधर) नीचे की ओर फेंका जाता है। यह गोला भू-तल से टकराता है, इस टक्कर में इसकी 50% ऊर्जा क्षयित हो जाती है। भू-तल से टकराने के बाद यह गोला उसी ऊँचाई तक उछल आता है। यदि  $g = 10 \text{ ms}^{-2}$  है तो, गोला का प्रारंभिक वेग है

- (1)  $14 \text{ ms}^{-1}$   
 (2)  $20 \text{ ms}^{-1}$   
 (3)  $28 \text{ ms}^{-1}$   
 (4)  $10 \text{ ms}^{-1}$

97. हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, लाइमन तथा बामर श्रेणियों की दीर्घतम तरंगदैर्घ्यों का अनुपात होता है ;

- (1)  $\frac{4}{9}$   
 (2) 4  
 (3)  $\frac{27}{5}$   
 (4) 27

98. A source of sound S emitting waves of frequency 100 Hz and an observer O are located at some distance from each other. The source is moving with a speed of  $19.4 \text{ ms}^{-1}$  at an angle of  $60^\circ$  with the source observer line as shown in the figure. The observer is at rest. The apparent frequency observed by the observer (velocity of sound in air  $330 \text{ ms}^{-1}$ ), is :



- (1) 100 Hz  
 (2) 103 Hz  
 (3) 106 Hz  
 (4) 97 Hz
99. If dimensions of critical velocity  $v_c$  of a liquid flowing through a tube are expressed as  $[\eta^x \rho^y r^z]$ , where  $\eta$ ,  $\rho$  and  $r$  are the coefficient of viscosity of liquid, density of liquid and radius of the tube respectively, then the values of  $x$ ,  $y$  and  $z$  are given by:
- (1) 1, -1, -1  
 (2) -1, -1, 1  
 (3) -1, -1, -1  
 (4) 1, 1, 1
100. 4.0 g of a gas occupies 22.4 litres at NTP. The specific heat capacity of the gas at constant volume is  $5.0 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ . If the speed of sound in this gas at NTP is  $952 \text{ ms}^{-1}$ , then the heat capacity at constant pressure is  
 (Take gas constant  $R = 8.3 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ )
- (1)  $8.0 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$   
 (2)  $7.5 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$   
 (3)  $7.0 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$   
 (4)  $8.5 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

101. If vectors  $\vec{A} = \cos \omega t \hat{i} + \sin \omega t \hat{j}$  and  $\vec{B} = \cos \frac{\omega t}{2} \hat{i} + \sin \frac{\omega t}{2} \hat{j}$  are functions of time, then the value of  $t$  at which they are orthogonal to each other is

- (1)  $t = \frac{\pi}{4\omega}$   
 (2)  $t = \frac{\pi}{2\omega}$   
 (3)  $t = \frac{\pi}{\omega}$   
 (4)  $t = 0$

98. 100 Hz आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता हुआ एक ध्वनि स्रोत S, तथा एक प्रेक्षक O, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। यह ध्वनि स्रोत,  $19.4 \text{ ms}^{-1}$  की चाल से चल रहा है। उसके चलने की दिशा, स्रोत तथा प्रेक्षक की स्थितियों को मिलाने वाली सरलरेखा से  $60^\circ$  का कोण बनाती है (आरेख देखिये)। यदि, प्रेक्षक अपनी स्थिति पर ही रुका रहता है तो, प्रेक्षक द्वारा सुनी गई ध्वनि की आभासी आवृत्ति (हवा में ध्वनि का वेग  $330 \text{ ms}^{-1}$ ) होगी :

- (1) 100 Hz  
 (2) 103 Hz  
 (3) 106 Hz  
 (4) 97 Hz

99. किसी नलिका से बहने वाले द्रव के क्रांतिक वेग,  $v_c$  की, विमाओं को,  $[\eta^x \rho^y r^z]$  से निर्दिष्ट किया जाता है, जहाँ  $\eta$ ,  $\rho$  तथा  $r$  क्रमशः द्रव का श्यानता गुणांक, द्रव का घनत्व तथा नलिका की त्रिज्या हैं। तो,  $x$ ,  $y$  तथा  $z$  का क्रमशः मान है :
- (1) 1, -1, -1  
 (2) -1, -1, 1  
 (3) -1, -1, -1  
 (4) 1, 1, 1


100. सामान्य-ताप तथा दाब पर, किसी गैस के 4.0 g द्रव्यमान का आयतन 22.4 लिटर है। स्थिर-आयतन पर इसकी विशिष्ट-ऊष्मा-धारिता  $5.0 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$  है। यदि, इस गैस में, सामान्य-ताप व दाब पर, ध्वनि का वेग  $952 \text{ ms}^{-1}$  है तो, इस गैस की, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता है :  
 ( $R = 8.3 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ )
- (1)  $8.0 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$   
 (2)  $7.5 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$   
 (3)  $7.0 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$   
 (4)  $8.5 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

101. यदि सदिश  $\vec{A} = \cos \omega t \hat{i} + \sin \omega t \hat{j}$  तथा सदिश  $\vec{B} = \cos \frac{\omega t}{2} \hat{i} + \sin \frac{\omega t}{2} \hat{j}$  समय के फलन हैं, तो, 't' का वह मान क्या होगा, जिस पर ये सदिश परस्पर लंबकोणिक होंगे ?

- (1)  $t = \frac{\pi}{4\omega}$   
 (2)  $t = \frac{\pi}{2\omega}$   
 (3)  $t = \frac{\pi}{\omega}$   
 (4)  $t = 0$

102

In the given figure, a diode D is connected to an external resistance  $R = 100 \Omega$  and an e.m.f. of 3.5 V. If the barrier potential developed across the diode is 0.5 V, the current in the circuit will be :



- (1) 30 mA
- (2) 40 mA
- (3) 20 mA
- (4) 35 mA

103.

If potential (in volts) in a region is expressed as  $V(x, y, z) = 6xy - y + 2yz$ , the electric field (in N/C) at point (1, 1, 0) is :

- (1)  $-(3\hat{i} + 5\hat{j} + 3\hat{k})$
- (2)  $-(6\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k})$
- (3)  $-(2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k})$
- (4)  $-(6\hat{i} + 9\hat{j} + \hat{k})$

104.

A remote - sensing satellite of earth revolves in a circular orbit at a height of  $0.25 \times 10^6$  m above the surface of earth. If earth's radius is  $6.38 \times 10^6$  m and  $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$ , then the orbital speed of the satellite is :

- (1)  $7.76 \text{ km s}^{-1}$
- (2)  $8.56 \text{ km s}^{-1}$
- (3)  $9.13 \text{ km s}^{-1}$
- (4)  $6.67 \text{ km s}^{-1}$


105.

Two metal wires of identical dimensions are connected in series. If  $\sigma_1$  and  $\sigma_2$  are the conductivities of the metal wires respectively, the effective conductivity of the combination is

- (1)  $\frac{2\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$
- (2)  $\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2\sigma_1\sigma_2}$
- (3)  $\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{\sigma_1\sigma_2}$
- (4)  $\frac{\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$

102.

यहाँ परिपथ में, एक डायोड D को एक बाह्य प्रतिरोध,  $R = 100 \Omega$  तथा 3.5 V ई.एम.एफ. की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि डायोड में (दोनों क्षेत्रों की संधि के आरपार) उत्पन्न रोधिका विभव 0.5 V है तो, परिपथ में धारा होगी :



- (1) 30 mA
- (2) 40 mA
- (3) 20 mA
- (4) 35 mA

103.

यदि किसी क्षेत्र में विभव (वोल्ट में) को,  $V(x, y, z) = 6xy - y + 2yz$ , से निर्दिष्ट किया जाय तो, बिन्दु (1, 1, 0) पर विद्युत क्षेत्र (N/C में) है :

- (1)  $-(3\hat{i} + 5\hat{j} + 3\hat{k})$
- (2)  $-(6\hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k})$
- (3)  $-(2\hat{i} + 3\hat{j} + \hat{k})$
- (4)  $-(6\hat{i} + 9\hat{j} + \hat{k})$

104.

एक सुदूर-संवेदी उपग्रह, पृथ्वी के पृष्ठ से  $0.25 \times 10^6$  m ऊँचाई पर, वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। यदि, पृथ्वी की त्रिज्या  $6.38 \times 10^6$  m है और  $g = 9.8 \text{ ms}^{-2}$  है तो, उपग्रह की कक्षीय चाल होगी :

- (1)  $7.76 \text{ km s}^{-1}$
- (2)  $8.56 \text{ km s}^{-1}$
- (3)  $9.13 \text{ km s}^{-1}$
- (4)  $6.67 \text{ km s}^{-1}$

105.

सर्वसम विस्तार (माप) के धातु के दो तार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि इन तारों की चालकता क्रमशः  $\sigma_1$  तथा  $\sigma_2$  है तो, इनके इस संयोजन की चालकता होगी

- (1)  $\frac{2\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$
- (2)  $\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{2\sigma_1\sigma_2}$
- (3)  $\frac{\sigma_1 + \sigma_2}{\sigma_1\sigma_2}$
- (4)  $\frac{\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$

106. A satellite S is moving in an elliptical orbit around the earth. The mass of the satellite is very small compared to the mass of the earth. Then,

- (1) the angular momentum of S about the centre of the earth changes in direction, but its magnitude remains constant.
- (2) the total mechanical energy of S varies periodically with time.
- (3) the linear momentum of S remains constant in magnitude.
- (4) the acceleration of S is always directed towards the centre of the earth.

107. Two particles A and B, move with constant velocities  $\vec{v}_1$  and  $\vec{v}_2$ . At the initial moment their position vectors are  $\vec{r}_1$  and  $\vec{r}_2$  respectively. The condition for particles A and B for their collision is :

- (1)  $\frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{|\vec{v}_2 - \vec{v}_1|}$
- (2)  $\vec{r}_1 \cdot \vec{v}_1 = \vec{r}_2 \cdot \vec{v}_2$
- (3)  $\vec{r}_1 \times \vec{v}_1 = \vec{r}_2 \times \vec{v}_2$
- (4)  $\vec{r}_1 - \vec{r}_2 = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$

108. Two stones of masses m and 2 m are whirled in horizontal circles, the heavier one in a radius  $\frac{r}{2}$  and the lighter one in radius r. The tangential speed of lighter stone is n times that of the value of heavier stone when they experience same centripetal forces. The value of n is :

- (1) 2
- (2) 3
- (3) 4
- (4) 1

109. A parallel plate air capacitor has capacity 'C', distance of separation between plates is 'd' and potential difference 'V' is applied between the plates. Force of attraction between the plates of the parallel plate air capacitor is :

- (1)  $\frac{C^2 V^2}{2d}$
- (2)  $\frac{CV^2}{2d}$
- (3)  $\frac{CV^2}{d}$
- (4)  $\frac{C^2 V^2}{2d^2}$

106. एक उपग्रह S, दीर्घवृत्तीय कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। उपग्रह का द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में कम है। तो :

- (1) पृथ्वी के केन्द्र के परितः, S के कोणीय संवेग की दिशा में परिवर्तन होता रहता है, किन्तु, इसका परिमाण सम रहता है।
- (2) S की कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान समय के साथ आवृत्ति रूप में परिवर्तित होती रहती है।
- (3) S के रेखीय संवेग का परिमाण (मान) स्थिर रहता है।
- (4) S का त्वरण सदैव पृथ्वी के केन्द्र की ओर होगा।

107. दो कण A तथा B स्थिर वेग क्रमशः  $\vec{v}_1$  तथा  $\vec{v}_2$  से गति कर रहे हैं। प्रारंभिक क्षण में उनके स्थिति सदिश क्रमशः  $\vec{r}_1$  तथा  $\vec{r}_2$  हैं। तो, A तथा B के संघट्ट होने के लिये प्रतिबंध है कि :

- (1)  $\frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{|\vec{v}_2 - \vec{v}_1|}$
- (2)  $\vec{r}_1 \cdot \vec{v}_1 = \vec{r}_2 \cdot \vec{v}_2$
- (3)  $\vec{r}_1 \times \vec{v}_1 = \vec{r}_2 \times \vec{v}_2$
- (4)  $\vec{r}_1 - \vec{r}_2 = \vec{v}_1 - \vec{v}_2$

108. दो पत्थरों के द्रव्यमान m तथा 2 m हैं, भारी पत्थर को  $\frac{r}{2}$  के तथा हल्के पत्थर को r त्रिज्या के वृत्ताकार क्षैतिज पथों घुमाया जाता है। जब ये पत्थर एक समान अभिकेन्द्रीय अनुभव करते हैं तब हल्के पत्थर का रेखीय वेग भारी पत्थर के रेखीय वेग का n गुना है। n का मान है :

- (1) 2
- (2) 3
- (3) 4
- (4) 1

109. एक समान्तर प्लेट वायु संधारित्र की दो पट्टिकाओं के बीच दूरी 'd' तथा इनके बीच विभवान्तर 'V' है। यदि इस संधारित्र की धारिता 'C' है तो, इसकी पट्टिकाओं के बीच आकर्षण बल होगा :

- (1)  $\frac{C^2 V^2}{2d}$
- (2)  $\frac{CV^2}{2d}$
- (3)  $\frac{CV^2}{d}$
- (4)  $\frac{C^2 V^2}{2d^2}$

109. The position vector of a particle  $\vec{R}$  as a function of time is given by:

$$\vec{R} = 4 \sin(2\pi t) \hat{i} + 4 \cos(2\pi t) \hat{j}$$

Where  $R$  is in meters,  $t$  is in seconds and  $\hat{i}$  and  $\hat{j}$  denote unit vectors along  $x$ - and  $y$ -directions, respectively. Which one of the following statements is wrong for the motion of particle?

- (1) Acceleration vector is along  $-\vec{R}$ .
- (2) Magnitude of acceleration vector is  $\frac{v^2}{R}$  where  $v$  is the velocity of particle.
- (3) Magnitude of the velocity of particle is 8 meter/second
- (4) Path of the particle is a circle of radius 4 meter.

1. A series R-C circuit is connected to an alternating voltage source. Consider two situations:

- (a) When capacitor is air filled.
- (b) When capacitor is mica filled.

Current through resistor is  $i$  and voltage across capacitor is  $V$  then:

- (1)  $V < V_b$
- (2)  $V_a > V_b$
- (3)  $i_a > i_b$
- (4)  $V_a = V_b$

2. A string is stretched between fixed points separated by 75.0 cm. It is observed to have resonant frequencies of 420 Hz and 315 Hz. There are no other resonant frequencies between these two. The lowest resonant frequency for this string is:

- (1) 155 Hz
- (2) 205 Hz
- (3) 10.5 Hz
- (4) 105 Hz

113. The coefficient of performance of a refrigerator is 5. If the temperature inside freezer is  $-20^\circ\text{C}$ , the temperature of the surroundings to which it rejects heat is:

- (1)  $31^\circ\text{C}$
- (2)  $41^\circ\text{C}$
- (3)  $11^\circ\text{C}$
- (4)  $21^\circ\text{C}$

110. समय के फलन के रूप में किसी कण का स्थिति सदिश  $\vec{R}$  दिया गया है:

$$\vec{R} = 4 \sin(2\pi t) \hat{i} + 4 \cos(2\pi t) \hat{j}$$

जहाँ,  $R$  मीटर में तथा 1 सेकंड में है और  $\hat{i}$  तथा  $\hat{j}$  क्रमशः  $x$ - तथा  $y$ -दिशाओं के अनुदिश एकांक सदिश हैं। इस कण की गति के लिये निम्नांकित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

- (1) त्वरण-सदिश,  $-\vec{R}$  के अनुदिश है।
- (2) त्वरण-सदिश का परिमाण,  $\frac{v^2}{R}$  है, जहाँ,  $v$  कण का वेग है।
- (3) कण के वेग का परिमाण 8 m/s है।
- (4) कण का पथ 4 m त्रिज्या का वृत्त है।

111. एक श्रेणी R-C परिपथ किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता के स्रोत से जुड़ा है। दो स्थितियों (a) तथा (b) पर विचार कीजिये:

- (a) जब, संधारित्र वायु संपूरित (भरा) है।
- (b) जब, संधारित्र माइका संपूरित है।

इस परिपथ में प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा  $i$  है तथा संधारित्र के सिरों के बीच विभवान्तर  $V$  है, तो:

- (1)  $V_a < V_b$
- (2)  $V_a > V_b$
- (3)  $i_a > i_b$
- (4)  $V_a = V_b$

112. एक डोरी दो स्थिर बिन्दुओं के बीच खिंची है। इन बिन्दुओं के बीच की दूरी 75.0 cm है। इस डोरी की दो अनुनाद-आवृत्तियाँ 420 Hz तथा 315 Hz हैं। इन दोनों के बीच में कोई अन्य अनुनाद-आवृत्ति नहीं है। तो, इस डोरी के लिये न्यूनतम अनुनाद-आवृत्ति है

- (1) 155 Hz
- (2) 205 Hz
- (3) 10.5 Hz
- (4) 105 Hz

113. किसी प्रशीतक (रेफ्रिजरेटर) का निष्पादन गुणांक 5 है। यदि फ्रीजर (प्रशीतित्र) का भीतरी ताप  $-20^\circ\text{C}$  है तो प्रशीतक के बाहर चारों ओर जहाँ यह ताप बाहर फेंकता है का तापमान होगा:

- (1)  $31^\circ\text{C}$
- (2)  $41^\circ\text{C}$
- (3)  $11^\circ\text{C}$
- (4)  $21^\circ\text{C}$

114. A photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength  $\lambda$  and  $\frac{\lambda}{2}$ . If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times that in the first case, the work function of the surface of the material is:

( $h$  = Planck's constant,  $c$  = speed of light)

- (1)  $\frac{hc}{2\lambda}$
- (2)  $\frac{hc}{\lambda}$
- (3)  $\frac{2hc}{\lambda}$
- (4)  $3\lambda$

115. In an astronomical telescope in normal adjustment a straight black line of length  $L$  is drawn on inside part of objective lens. The eye-piece forms a real image of this line. The length of this image is  $l$ . The magnification of the telescope is:

- (1)  $\frac{L}{l} + 1$
- (2)  $\frac{L}{l} - 1$
- (3)  $L + l$
- (4)  $L$

116. Two slits in Young's experiment have widths in the ratio 1 : 25. The ratio of intensity at the maxima and minima in the interference pattern,  $\frac{I_{\max}}{I_{\min}}$  is:

- (1)  $\frac{9}{4}$
- (2)  $\frac{121}{49}$
- (3)  $\frac{49}{121}$
- (4)  $\frac{4}{9}$

114. किसी प्रकाश वैद्युत पृष्ठ को, क्रमशः  $\lambda$  तथा  $\frac{\lambda}{2}$  एकवर्णी प्रकाश से प्रदीप्त किया जाता है। यदि प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का दूसरी दशा में, पहली दशा से 3 गुना है तो, इस पृष्ठ के प का कार्य फलन है: ( $h$  = प्लांक स्थिरांक,  $c$  = प्रकाश का वे

- (1)  $\frac{hc}{2\lambda}$
- (2)  $\frac{hc}{\lambda}$
- (3)  $2hc$
- (4)  $3\lambda$

115. सामान्य समायोजन की स्थिति में, किसी खगोलीय दूरदर्शक अभिमुखक लेंस के भीतरी भाग पर,  $L$  लम्बाई की एक सरल रेखा खींची गई है। नेत्रिका इस सरल रेखा का प्रतिबिम्ब बनाती है। इस प्रतिबिम्ब की लम्बाई  $l$  है तो, दूर का आवर्धन है:

- (1)  $\frac{L}{l} + 1$
- (2)  $\frac{L}{l} - 1$
- (3)  $L + l$
- (4)  $L$

116. यंग के किसी द्विचित्री प्रयोग में, दो छिद्रों की चौड़ाइयों अनुपात 1 : 25 है। तो, व्यतिकरण पैटर्न में उच्चतम तथा निम्नतम की तीव्रताओं का अनुपात  $\frac{I_{\max}}{I_{\min}}$  होगा:

- (1)  $\frac{9}{4}$
- (2)  $\frac{121}{49}$
- (3)  $\frac{49}{121}$
- (4)  $\frac{4}{9}$

117 Two vessels separately contain two ideal gases A and B at the same temperature. The pressure of A being twice that of B. Under such conditions, the density of A is found to be 1.5 times the density of B. The ratio of molecular weight of A and B is:

- (1) 2
- (2) 3
- (3) 4
- (4) 1

118. A circuit contains an ammeter, a battery of 30 V and a resistance 40.8 ohm all connected in series. If the ammeter has a coil of resistance 480 ohm and a shunt of 20 ohm, the reading in the ammeter will be:

- (1) 0.5 A
- (2) 0.25 A
- (3) 2 A
- (4) 1 A

119. The value of coefficient of volume expansion of glycerin is  $5 \times 10^{-4} K^{-1}$ . The fractional change in the density of glycerin for a rise of  $40^\circ C$  in its temperature, is:

- (1) 0.015
- (2) 0.020
- (3) 0.025
- (4) 0.010

120. The heart of a man pumps 5 litres of blood through the arteries per minute at a pressure of 150 mm of mercury. If the density of mercury be  $13.6 \times 10^3 kg/m^3$  and  $g = 10 m/s^2$  then the power of heart in watt is:

- (1) 1.70
- (2) 2.35
- (3) 3.0
- (4) 1.50

117 एक समान तापमान पर दो पात्रों में से एक में आदर्श गैस A तथा दूसरे में आदर्श गैस B भरी है। गैस A का दाब, गैस B के दाब का दो गुना है। इन दशाओं के अन्तर्गत, गैस A का घनत्व, गैस B के घनत्व से 1.5 गुना पाया जाता है, तो, A तथा B के अणुभारों का अनुपात होगा

- (1) 2
- (2) 3
- (3) 4
- (4) 1

118 किसी परिपथ में, 30 V की एक बैटरी, 40.8 ओम का एक प्रतिरोध तथा एक एमीटर, सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि एमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 480  $\Omega$  है और इससे जुड़े शंट का प्रतिरोध 20  $\Omega$  है तो, एमीटर का पाठ्यांक होगा

- (1) 0.5 A
- (2) 0.25 A
- (3) 2 A
- (4) 1 A

119 ग्लिसरीन का आयतन प्रसार गुणांक  $5 \times 10^{-4} K^{-1}$  है। तब ग्लिसरीन के तापक्रम में  $40^\circ C$  वृद्धि करने पर उसके घनत्व में आंशिक परिवर्तन होगा:


- (1) 0.015
- (2) 0.020
- (3) 0.025
- (4) 0.010

120 किसी व्यक्ति का हृदय, धमनियों से 150 mm पराद दाब पर, 5 लिटर रक्त प्रति मिनट पम्प करता है। यदि, पराद का घनत्व  $13.6 \times 10^3 kg/m^3$  तथा  $g = 10 m/s^2$  हैं तो, हृदय की शक्ति ब्राट में है:

- (1) 1.70
- (2) 2.35
- (3) 3.0
- (4) 1.50



121. A beam of light consisting of red, green and blue colours is incident on a right angled prism. The refractive index of the material of the prism for the above red, green and blue wavelengths are 1.39, 1.44 and 1.47, respectively.




The prism will:

- (1) separate the blue colour part from the red and green colours
- (2) separate all the three colours from one another
- (3) not separate the three colours at all
- (4) separate the red colour part from the green and blue colours

122. A rectangular coil of length 0.12 m and width 0.1 m having 50 turns of wire is suspended vertically in a uniform magnetic field of strength 0.2 Weber/m<sup>2</sup>. The coil carries a current of 2 A. If the plane of the coil is inclined at an angle of 30° with the direction of the field, the torque required to keep the coil in stable equilibrium will be :


- (1) 0.15 Nm
- (2) 0.20 Nm
- (3) 0.24 Nm
- (4) 0.12 Nm

123. An electron moves on a straight line path XY as shown. The abcd is a coil adjacent to the path of electron. What will be the direction of current, if any, induced in the coil ?



- (1) abcd
- (2) adcb
- (3) The current will reverse its direction as electron goes past the coil
- (4) No current induced

121. एक प्रकाश किरणपुंज लाल, हरे तथा नीले रंगों में बना है। यह किरणपुंज किसी समकोणी प्रिज्म पर आपतित होता है (आरेख देखिये)। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तक, लाल, हरे व नीले रंग के लिये क्रमशः 1.39, 1.44 तथा 1.47 है।




यह प्रिज्म :

- (1) किरणपुंज के नीले रंग भाग को अन्य रंगों से पृथक कर देगा।
- (2) किरणपुंज के तीनों रंगों को एक दूसरे से पृथक कर देगा।
- (3) तीनों रंगों को विलकुल भी पृथक नहीं करेगा।
- (4) किरणपुंज के लाल रंग भाग को अन्य रंगों से पृथक देगा।

122. एक 0.12 m लम्बी, 0.1 m चौड़ी कुंडली में तार के 50 फेरे हैं इसको 0.2 Weber/m<sup>2</sup> के एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में ऊर्ध्व लटकाया गया है। कुंडली में 2 A विद्युत्प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। यदि कुंडली, चुम्बकीय क्षेत्र से 30° कोण बनाते हैं तो, इसे रोके रखने के लिये शंक्विक बल आवश्यक कितना होगा :

- (1) 0.15 Nm
- (2) 0.20 Nm
- (3) 0.24 Nm
- (4) 0.12 Nm

123. एक इलेक्ट्रॉन, सरल रेखीय पथ, XY पर गतिमान है। एक कुंडली abcd इस इलेक्ट्रॉन के मार्ग के निकटवर्ती है (आरेख देखिये)। तो, इस कुंडली में प्रेरित धारा (यदि कोई हो तो) की दिशा क्या होगी ?



- (1) abcd दिशा में।
- (2) adcb दिशा में।
- (3) इलेक्ट्रॉन के कुंडली के पास से निकल जाने पर धारा की दिशा विपरीत हो जायेगी।
- (4) धारा प्रेरित नहीं होगी।

A nucleus of uranium decays at rest into nuclei of thorium and helium. Then:

- (1) The helium nucleus has more kinetic energy than the thorium nucleus.
- (2) The helium nucleus has less momentum than the thorium nucleus.
- (3) The helium nucleus has more momentum than the thorium nucleus.
- (4) The helium nucleus has less kinetic energy than the thorium nucleus.

125. A force  $\vec{F} = \alpha \hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k}$  is acting at a point  $\vec{r} = 2\hat{i} - 6\hat{j} - 12\hat{k}$ . The value of  $\alpha$  for which angular momentum about origin is conserved is :

- (1) -1
- (2) 2
- (3) zero
- (4)

Water rises to a height 'h' in capillary tube. If the length of capillary tube above the surface of water is made less than 'h', then :

- (1) water rises upto the tip of capillary tube and then starts overflowing like a fountain.
- (2) water rises upto the top of capillary tube and stays there without overflowing.
- (3) water rises upto a point a little below the top and stays there.
- (4) water does not rise at all.

A particle is executing a simple harmonic motion. Its maximum acceleration is  $\alpha$  and maximum velocity is  $\beta$ . Then, its time period of vibration will be:

- (1)  $\frac{\beta^2}{\alpha^2}$
- (2)  $\frac{\alpha}{\beta}$
- (3)  $\frac{\beta^2}{\alpha}$
- (4)  $\frac{2\pi\beta}{\alpha}$

124. विरामावस्था में यूरेनियम का एक नाभिक, थोरियम तथा हीलियम के नाभिकों में क्षयित होता है। तो :

- (1) हीलियम-नाभिक की गतिज ऊर्जा, थोरियम-नाभिक से अधिक होती है।
  - (2) हीलियम-नाभिक का संवेग, थोरियम-नाभिक से कम होता है।
  - (3) हीलियम-नाभिक का संवेग, थोरियम-नाभिक से अधिक होता है।
- हीलियम-नाभिक की गतिज ऊर्जा, थोरियम-नाभिक से कम होती है।

125. किसी बिन्दु,  $\vec{r} = 2\hat{i} - 6\hat{j} - 12\hat{k}$  पर एक बल,  $\vec{F} = \alpha\hat{i} + 3\hat{j} + 6\hat{k}$  लग रहा है। तो,  $\alpha$  के किस मान के लिये मूल बिन्दु के परितः कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा ?

- (1) -1
- (2) 2
- (3) शून्य
- (4) 1

126. किसी केशिका में जल 'h' ऊँचाई तक चढ़ता है। यदि, जल की सतह से ऊपर केशिका की लम्बाई 'h' से कम हो तो :

- (1) जल केशिका के ऊपरी सिरे तक चढ़कर, फव्वारे के रूप में बाहर बहने लगता है।
- (2) जल केशिका के ऊपरी सिरे तक चढ़ जाता है, वहीं रुकता है बाहर नहीं बहता।
- (3) जल केशिका के ऊपरी सिरे से कुछ नीचे तक चढ़ता है और वहीं बना रहता है।
- (4) जल केशिका में नहीं चढ़ता।

127. सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का अधिकतम त्वरण  $\alpha$  तथा अधिकतम वेग  $\beta$  है। तो, इसके कम्पन का आवर्तकाल होगा :

- (1)  $\frac{\beta^2}{\alpha^2}$
- (2)  $\frac{\alpha}{\beta}$
- (3)  $\frac{\beta^2}{\alpha}$
- (4)  $\frac{2\pi\beta}{\alpha}$

128. The energy of the em waves is of the order of 15 keV. To which part of the spectrum does it belong?

- (1) X-rays
- (2) Infra-red rays
- (3) Ultraviolet rays
- (4)  $\gamma$ -rays

129. Light of wavelength 500 nm is incident on a metal with work function 2.28 eV. The de Broglie wavelength of the emitted electron is:

- (1)  $< 2.8 \times 10^{-10}$  m
- (2)  $< 2.8 \times 10^{-9}$  m
- (3)  $\geq 2.8 \times 10^{-9}$  m
- (4)  $\leq 2.8 \times 10^{-12}$  m

130. At the first minimum adjacent to the central maximum of a single-slit diffraction pattern, the phase difference between the Huygen's wavelet from the edge of the slit and the wavelet from the midpoint of the slit is:

- (1)  $\frac{\pi}{4}$  radian
- (2)  $\frac{\pi}{2}$  radian
- (3)  $\pi$  radian
- (4)  $\frac{\pi}{8}$  radian

131. On a frictionless surface, a block of mass  $M$  moving at speed  $v$  collides elastically with another block of same mass  $M$  which is initially at rest. After collision the first block moves at an angle  $\theta$  to its initial direction and has a speed  $\frac{v}{3}$ . The second block's speed after the collision is:

- (1)  $\frac{2\sqrt{2}}{3}v$
- (2)  $-v$
- (3)  $\frac{3}{\sqrt{2}}v$
- (4)  $\frac{\sqrt{3}}{2}v$

128. किसी बिद्युत चुम्बकीय तरंग की ऊर्जा की कोटि 15 keV है। यह स्पेक्ट्रम के किस भाग का सदस्य है?

- (1) एक्स-किरणें
- (2) अवरक्त किरणें
- (3) पराबैन्धी किरणें
- (4) गामा किरणें

129. किसी धातु का कार्य फलन 2.28 eV है। इस पर 500 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है तो, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दे-ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य होगी:

- (1)  $< 2.8 \times 10^{-10}$  m
- (2)  $< 2.8 \times 10^{-9}$  m
- (3)  $\geq 2.8 \times 10^{-9}$  m
- (4)  $\leq 2.8 \times 10^{-12}$  m

130. एकल छिरी विवर्तन पैटर्न में, केन्द्रीय उच्चक के निकटवर्ती प्रथम न्यूनिक पर, छिरी के किनारे तथा उसके मध्य बिन्दु से उत्पन्न हाइगेन्स-तरंगिकाओं के बीच पथान्तर होता है:

- (1)  $\frac{\pi}{4}$  रेडियन
- (2)  $\frac{\pi}{2}$  रेडियन
- (3)  $\pi$  रेडियन
- (4)  $\frac{\pi}{8}$  रेडियन

131. किसी घर्षणहीन पृष्ठ पर  $v$  चाल से चलता हुआ  $M$  द्रव्य तान का एक ब्लॉक, उसी द्रव्यमान  $M$  के विरामावस्था में स्थित एक अन्य ब्लॉक से टकराता है। टक्कर के पश्चात् पहला ब्लॉक,  $\frac{v}{3}$  चाल से, अपनी प्रारम्भिक गति की दिशा से  $\theta$  कोण पर चलने लगता है। तो, टक्कर के पश्चात् दूसरे ब्लॉक का चाल होगी:

- (1)  $\frac{2\sqrt{2}}{3}v$
- (2)  $-v$
- (3)  $\frac{3}{\sqrt{2}}v$
- (4)  $\frac{\sqrt{3}}{2}v$

A potentiometer wire of length  $L$  and a resistance  $r$  are connected in series with a battery of e.m.f.  $E_0$  and a resistance  $r_1$ . An unknown e.m.f.  $E$  is balanced at a length  $l$  of the potentiometer wire. The e.m.f.  $E$  will be given by:

- (1)  $\frac{L E_0 r}{r_1}$
- (2)  $\frac{E_0 r}{(r + r_1)} \cdot \frac{l}{L}$
- (3)  $\frac{E_0 l}{L}$
- (4)  $\frac{L E_0 r}{(r + r_1)l}$

The Young's modulus of steel is twice that of brass. Two wires of same length and of same area of cross section, one of steel and another of brass are suspended from the same roof. If we want the lower ends of the wires to be at the same level, then the weights added to the steel and brass wires must be in the ratio of:

- (1) 1 : 2
- (2) 2 : 1
- (3) 4 : 1
- (4) 1 : 1

The input signal given to a CE amplifier having a voltage gain of 150 is  $V_i = 2 \cos\left(15t + \frac{\pi}{3}\right)$ . The corresponding output signal will be:

- (1)  $300 \cos\left(15t + \frac{\pi}{3}\right)$
- (2)  $75 \cos\left(15t + \frac{2\pi}{3}\right)$
- (3)  $2 \cos\left(15t + \frac{5\pi}{6}\right)$
- (4)  $300 \cos\left(15t + \frac{4\pi}{3}\right)$

132. लम्बाई के एक विभवमापी तार तथा एक प्रतिरोध  $r$  को, श्रेणी क्रम में,  $E_0$  ई.एम.एफ. की एक बैटरी तथा प्रतिरोध  $r_1$  से जोड़ा गया है। इस विभवमापी की लम्बाई पर, किसी अज्ञात ई.एम.एफ.  $E$  के लिये संतुलन बिन्दु प्राप्त होता है। तो,  $E$  का मान है:

- (1)  $\frac{l E_0 r}{l r_1}$
- (2)  $\frac{E_0 r}{(r + r_1)} \cdot \frac{l}{L}$
- (3)  $\frac{E_0 l}{L}$
- (4)  $\frac{L E_0 r}{(r + r_1)l}$

133. स्टील का यंग प्रत्यास्यता गुणांक, पीतल से दो गुना है। एक ही लम्बाई तथा एक ही अनुप्रस्थ काट के दो तारों, एक स्टील का तथा एक पीतल का, को एक ही छत से लटकवाया जाता है। यदि, भार लटकाने पर, दोनों तारों के निचले सिरे एक ही तल पर हैं तो स्टील तथा पीतल के तारों से लटकाने वाले का अनुपात होना चाहिये:

- (1) 1 : 2
- (2) 2 : 1
- (3) 4 : 1
- (4) 1 : 1

134. किसी CE (उभयनिष्ठ उत्सर्जक) प्रवर्धक की वोल्टता-सन्धि 150 है। इसका निवेश सिग्नल (संकेत),  $V_i = 2 \cos\left(15t + \frac{\pi}{3}\right)$  है, तो, संगत निर्गत सिग्नल होगा:

- (1)  $300 \cos\left(15t + \frac{\pi}{3}\right)$
- (2)  $75 \cos\left(15t + \frac{2\pi}{3}\right)$
- (3)  $2 \cos\left(15t + \frac{5\pi}{6}\right)$
- (4)  $300 \cos\left(15t + \frac{4\pi}{3}\right)$

135. An automobile moves on a road with a speed of  $54 \text{ km h}^{-1}$ . The radius of its wheels is  $0.45 \text{ m}$  and the moment of inertia of the wheel about its axis of rotation is  $3 \text{ kg m}^2$ . If the vehicle is brought to rest in  $15 \text{ s}$ , the magnitude of average torque transmitted by its brakes to the wheel is:

- (1)  $6.66 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$
- (2)  $8.58 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$
- (3)  $10.86 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$
- (4)  $2.86 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$

136. In which of the following pairs, both the species are not isostructural?

- (1)  $\text{XeF}_4, \text{XeO}_4$
- (2)  $\text{SiCl}_4, \text{PCl}_4^+$
- (3) diamond, silicon carbide
- (4)  $\text{NH}_3, \text{PH}_3$

137. Which one of the following esters gets hydrolysed most easily under alkaline conditions?

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

138. Reaction of phenol with chloroform in presence of dilute sodium hydroxide finally introduces which one of the following functional group?

- (1)  $-\text{CHO}$
- (2)  $-\text{CH}_2\text{Cl}$
- (3)  $-\text{COOH}$
- (4)  $-\text{CHCl}_2$

135. एक मोटर वाहन किसी सड़क पर  $54 \text{ km h}^{-1}$  की चाल से चल रहा है। इसके पहियों की त्रिज्या  $0.45 \text{ m}$  है और पहियों अक्ष के परितः पहिये का जड़त्व आघूर्ण  $3 \text{ kg m}^2$  है। यदि ब्रेक लगाने के बाद, वाहन को रकने में  $15 \text{ s}$  का समय लगता है तो, ब्रेक द्वारा पहिये पर लगा औसत बल आघूर्ण का मान होगा :

- (1)  $6.66 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$
- (2)  $8.58 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$
- (3)  $10.86 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$
- (4)  $2.86 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$

136. निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी दोनों स्पीशीज इसोस्ट्रक्चरल नहीं हैं?

- (1)  $\text{XeF}_4, \text{XeO}_4$
- (2)  $\text{SiCl}_4, \text{PCl}_4^+$
- (3) हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड
- (4)  $\text{NH}_3, \text{PH}_3$

137. निम्नलिखित में से कौन-सा एस्टर क्षारीय दशा में सबसे जल्द अपघटित होता है?

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

138. फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ तनु  $\text{NaOH}$  में करने पर निम्नलिखित में से अंततः कौन-सा क्रियात्मक समूह है?

- (1)  $-\text{CHO}$
- (2)  $-\text{CH}_2\text{Cl}$
- (3)  $-\text{COOH}$
- (4)  $-\text{CHCl}_2$

139. Which of the following reaction(s) can be used for the preparation of alkyl halides?

- (I)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{HCl} \xrightarrow{\text{anh. ZnCl}_2}$
  - (II)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{HCl} \xrightarrow{\quad}$
  - (III)  $(\text{CH}_3)_3\text{COH} + \text{HCl} \xrightarrow{\quad}$
  - (IV)  $(\text{CH}_3)_2\text{CHOH} + \text{HCl} \xrightarrow{\text{anh. ZnCl}_2}$
- (1) (III) and (IV) only
  - (2) (I), (III) and (IV) only
  - (3) (I) and (II) only
  - (4) (IV) only

In an  $\text{S}_{\text{N}}1$  reaction on chiral centres, there is:

- (1) 100% inversion
- (2) 100% racemization
- (3) inversion more than retention leading to partial racemization
- (4) 100% retention

Which of the following is not the product of dehydration of

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

On heating which of the following releases  $\text{CO}_2$  most easily?

- (1)  $\text{CaCO}_3$
- (2)  $\text{K}_2\text{CO}_3$
- (3)  $\text{Na}_2\text{CO}_3$
- (4)  $\text{MgCO}_3$

139. निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया/अभिक्रियाएँ ऐल्किल हैलाइड के विरतन में उपयोग में ली जा सकती है?

- (I)  $\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{OH} + \text{HCl} \xrightarrow{\text{निर्जल ZnCl}_2}$
  - (II)  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{HCl} \xrightarrow{\quad}$
  - (III)  $(\text{CH}_3)_3\text{COH} + \text{HCl} \xrightarrow{\quad}$
  - (IV)  $(\text{CH}_3)_2\text{CHOH} + \text{HCl} \xrightarrow{\text{निर्जल ZnCl}_2}$
- (1) केवल (III) और (IV)
  - (2) केवल (I), (III) और (IV)
  - (3) केवल (I) और (II)
  - (4) केवल (IV)

140. काइरल केन्द्र पर  $\text{S}_{\text{N}}1$  अभिक्रिया में

- (1) 100% प्रतिलोमन
- (2) 100% रेसिमीकरण
- (3) धारण से ज्यादा प्रतिलोमन के द्वारा आंशिक रेसिमीकरण
- (4) 100% धारण



141. निम्नलिखित में कौन-सा उत्पाद, के निर्जलीकरण का नहीं है?

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)


142. निम्न में से किसको गर्म करने पर  $\text{CO}_2$  उत्सर्जित होगी?

- (1)  $\text{CaCO}_3$
- (2)  $\text{K}_2\text{CO}_3$
- (3)  $\text{Na}_2\text{CO}_3$
- (4)  $\text{MgCO}_3$

143. In the reaction with HCl, an alkene reacts in accordance with the Markovnikov's rule, to give a product 1-chloro-1-methylcyclohexane. The possible alkene is:



(3) (A) and (B)



144. Number of possible isomers for the complex  $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$  will be: (en = ethylenediamine)

- (1) 4  
(2) 2  
(3) 1  
(4) 3

145. A gas such as carbon monoxide would be most likely to obey the ideal gas law at:

- (1) low temperatures and low pressures.  
(2) high temperatures and low pressures.  
(3) low temperatures and high pressures.  
(4) high temperatures and high pressures.



146. If Avogadro number  $N_A$  is changed from  $6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$  to  $6.022 \times 10^{20} \text{ mol}^{-1}$ , this would change:

- (1) the ratio of elements to each other in a compound.  
(2) the definition of mass in units of grams.  
(3) the mass of one mole of carbon.  
(4) the ratio of chemical species to each other in a balanced equation.


147. Gadolinium belongs to 4f series. Its atomic number is 64. Which of the following is the correct electronic configuration of gadolinium?

- (1)  $[\text{Xe}] 4f^6 5d^2 6s^2$   
(2)  $[\text{Xe}] 4f^8 6d^2$   
(3)  $[\text{Xe}] 4f^9 5s^1$   
(4)  $[\text{Xe}] 4f^7 5d^1 6s^2$

143. एक एल्कीन HCl से अभिक्रिया करके मार्कोवnikov नियम के अनुसार उत्पन्न 1-क्लोरो-1-मथिलसाइक्लोहेक्सेन देता है संभावित एल्कीन है:



(3) (A) और (B)



144. संकुल  $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}$  के संभावित समावयवों की संख्या होगी: (en = ईथिलीनडाईऐमीन)

- (1) 4  
(2) 2  
(3) 1  
(4) 3

145. एक गैस जैसे कार्बन मोनोक्साइड आदर्श गैस नियम का सर्वाधिक किस दशा में करेगा?

- (1) निम्न तापों एवं निम्न दाबों पर  
(2) उच्च तापों एवं निम्न दाबों पर  
(3) निम्न तापों एवं उच्च दाबों पर  
(4) उच्च तापों एवं उच्च दाबों पर

146. यदि आवोगाद्रो संख्या  $N_A$   $6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$  से

परि होकर  $6.022 \times 10^{20} \text{ mol}^{-1}$  होता है, तो इससे

होगा:

- (1) द्रव्यमान की परिभाषा पर यूनित में।  
(2) यौगिक में परस्पर तत्वों का अनुपात।  
(3) एक मोल कार्बन का द्रव्यमान।

(4) संतुलित समीकरण में परस्पर रासायनिक स्पीशीय अनुपात।

147. गैडोलिनियम 4f श्रेणी से संबंधित है। इसकी संख्या है। निम्नलिखित में से गैडोलिनियम

विन्यास है?

- (1)  $[\text{Xe}] 4f^6 5d^2 6s^2$   
(2)  $[\text{Xe}] 4f^8 6d^2$   
(3)  $[\text{Xe}] 4f^9 5s^1$   
(4)  $[\text{Xe}] 4f^7 5d^1 6s^2$

148. What is the pH of the resulting solution when equal volumes of 0.1 M NaOH and 0.01 M HCl are mixed?

- (1) 1.04  
(2) 12.65  
(3) 2.0  
(4) 7.0

149. Decreasing order of stability of  $\text{O}_2$ ,  $\text{O}_2^-$ ,  $\text{O}_2^+$  and  $\text{O}_2^{2-}$  is:

- (1)  $\text{O}_2^- > \text{O}_2^{2-} > \text{O}_2^+ > \text{O}_2$   
(2)  $\text{O}_2^+ > \text{O}_2 > \text{O}_2^- > \text{O}_2^{2-}$   
(3)  $\text{O}_2^{2-} > \text{O}_2^- > \text{O}_2 > \text{O}_2^+$   
(4)  $\text{O}_2 > \text{O}_2^+ > \text{O}_2^{2-} > \text{O}_2^-$

The correct statement regarding defects in crystalline solids is:

- (1) Frenkel defect is found in halides of alkaline metals.  
(2) Schottky defects have no effect on the density of crystalline solids.  
(3) Frenkel defects decrease the density of crystalline solids.  
(4) Frenkel defect is a dislocation defect.

Which of the following statements is not correct for a nucleophile?

- (1) Nucleophiles are not electron seeking  
(2) Nucleophile is a Lewis acid  
(3) Ammonia is a nucleophile  
(4) Nucleophiles attack low  $e^-$  density sites

The hybridization involved in complex  $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$  is: (At. No. Ni = 28)

- (1)  $d^2sp^3$   
(2)  $dsp^2$   
(3)  $sp^3$   
(4)  $d^2sp^2$

The stability of +1 oxidation state among Al, Ga, In and Tl increases in the sequence

- (1)  $\text{In} < \text{Tl} < \text{Ga} < \text{Al}$   
(2)  $\text{Ga} < \text{In} < \text{Al} < \text{Tl}$   
(3)  $\text{Al} < \text{Ga} < \text{In} < \text{Tl}$   
(4)  $\text{Tl} < \text{In} < \text{Ga} < \text{Al}$

148. 0.1 M NaOH एवं 0.01 M HCl के समान आयतन को मिश्रित करने पर बनने वाले विलयन का pH क्या है?

- (1) 1.04  
(2) 12.65  
(3) 2.0  
(4) 7.0

149.  $\text{O}_2$ ,  $\text{O}_2^-$ ,  $\text{O}_2^+$  तथा  $\text{O}_2^{2-}$  के स्थायित्व का घटता हुआ क्रम है:

- (1)  $\text{O}_2^- > \text{O}_2^{2-} > \text{O}_2^+ > \text{O}_2$   
(2)  $\text{O}_2^+ > \text{O}_2 > \text{O}_2^- > \text{O}_2^{2-}$   
(3)  $\text{O}_2^{2-} > \text{O}_2^- > \text{O}_2 > \text{O}_2^+$   
(4)  $\text{O}_2 > \text{O}_2^+ > \text{O}_2^{2-} > \text{O}_2^-$

150. क्रिस्टलीय ठोसों में दोषों के सम्बंध में सही कथन है:

- (1) क्षार धातुओं के हैलाइडों में फ्रेंकेल दोष पाया जाता है।  
(2) क्रिस्टलीय ठोसों के घनत्व पर शॉटकी दोषों का कोई प्रभाव नहीं होता है।  
(3) फ्रेंकेल दोष क्रिस्टलीय ठोसों के घनत्व को कम कर देते हैं।  
(4) फ्रेंकेल दोष एक स्थान-भ्रंश दोष है।

151. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन नाभिकस्नेही के लिये सही नहीं है?

- (1) नाभिकस्नेही इलेक्ट्रॉन की तलाश में नहीं रहता है।  
(2) नाभिकस्नेही सुईस अम्ल है।  
(3) अमोनिया एक नाभिकस्नेही है।  
(4) नाभिकस्नेही कम इलेक्ट्रॉन घनत्व स्थान पर आक्रमण करता है।

152. संकुल  $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$  में संकरण है: (प. सं. Ni = 28)

- (1)  $d^2sp^3$   
(2)  $dsp^2$   
(3)  $sp^3$   
(4)  $d^2sp^2$

153. +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व Al, Ga, In एवं Tl में अनुक्रम में बढ़ता है:

- (1)  $\text{In} < \text{Tl} < \text{Ga} < \text{Al}$   
(2)  $\text{Ga} < \text{In} < \text{Al} < \text{Tl}$   
(3)  $\text{Al} < \text{Ga} < \text{In} < \text{Tl}$   
(4)  $\text{Tl} < \text{In} < \text{Ga} < \text{Al}$

154. The sum of coordination number and oxidation number of the metal M in the complex  $[M(en)_2(C_2O_4)]Cl$  (where en is ethylenediamine) is:
- 8
  - 9
  - 6
  - 7

155. Which of the statements given below is incorrect?
- $OF_2$  is an oxide of fluorine
  - $Cl_2O_7$  is an anhydride of perchloric acid
  - $O_3$  molecule is bent
  - $ONF$  is isoelectronic with  $O_2N^-$

156. In the extraction of copper from its sulphide ore, the metal is finally obtained by the reduction of cuprous oxide with:
- sulphur dioxide
  - iron(II) sulphide
  - carbon monoxide
  - copper(I) sulphide

157. Which one of the following pairs of solution is not an acidic buffer?
- $H_3PO_4$  and  $Na_3PO_4$
  - $HClO_4$  and  $NaClO_4$
  - $CH_3COOH$  and  $CH_3COONa$
  - $H_2CO_3$  and  $Na_2CO_3$

158. Assuming complete ionization, same moles of which of the following compounds will require the least amount of acidified  $KMnO_4$  for complete oxidation?
- $Fe(NO_2)_2$
  - $FeSO_4$
  - $FeSO_3$
  - $FeC_2O_4$

154. संकुल  $[M(en)_2(C_2O_4)]Cl$  (जहाँ en इथिलेनडाइअमीन है) में धातु M को उपरोक्त संयोजन संख्या एवं ऑक्सीकरण का योग है:
- 8
  - 9
  - 6
  - 7

155. नीचे दिये कथनों में से कौन-सा गलत है?
- $OF_2$  फ्लोरिन का ऑक्साइड है।
  - $Cl_2O_7$  परक्लोरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है।
  - $O_3$  अणु मुड़ा हुआ है।
  - $ONF$  समइलेक्ट्रॉनी है,  $O_2N^-$  के साथ।

- 156) सल्फाइड अक्साइडों में से कॉपर के निष्कर्षण में धातु को प्राप्त करने के लिये अंततः क्यूप्रस ऑक्साइड का अपचयन साथ होता है?
- सल्फर डाईऑक्साइड
  - आयरन (II) सल्फाइड
  - कार्बन मोनोऑक्साइड
  - कॉपर(I) सल्फाइड

157. निम्नलिखित विलयनों के युग्मों में से कौन-सा अम्लीय नहीं है?
- $H_3PO_4$  एवं  $Na_3PO_4$
  - $HClO_4$  एवं  $NaClO_4$
  - $CH_3COOH$  एवं  $CH_3COONa$
  - $H_2CO_3$  एवं  $Na_2CO_3$

- 158) पूर्ण आयनीकरण को मानते हुए, निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक के पूर्ण ऑक्सीकरण में सबसे कम मात्रा में  $KMnO_4$  की आवश्यकता होगी?
- $Fe(NO_2)_2$
  - $FeSO_4$
  - $FeSO_3$
  - $FeC_2O_4$

60. 20.0 g of a magnesium carbonate sample decomposes on heating to give carbon dioxide and 8.0 g magnesium oxide. What will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample?
- 84
  - 75
  - 96
  - 60

(At. Wt. : Mg = 24)

Two possible stereo-structures of  $CH_3CHOH.COOH$ , which are optically active, are called:

Mesomers  
Diastereomers  
Atropisomers  
Enantiomers


The heat of combustion of carbon to  $CO_2$  is  $-393.5$  kJ/mol. The heat released upon formation of 35.2 g of  $CO_2$  from carbon and oxygen gas is:

- 3.15 kJ
- 315 kJ
- +315 kJ
- 630 kJ

The rate constant of the reaction  $A \rightarrow B$  is  $0.6 \times 10^{-3}$  mole per second. If the concentration of A is 5 M, then concentration of B after 20 minutes is:

- 0.72 M
- 1.08 M
- 3.60 M
- 0.36 M

formation of the oxide ion,  $O^{2-}(g)$ , from oxygen atom requires first an exothermic and then an endothermic step as shown below:



Thus process of formation of  $O^{2-}$  in gas phase is unfavourable even though  $O^{2-}$  is isoelectronic with neon. It is due to the fact that,

- addition of electron in oxygen results in larger size of the ion.
- electron repulsion outweighs the stability gained by achieving noble gas configuration.
- $O^-$  ion has comparatively smaller size than oxygen atom.
- oxygen is more electronegative.

- 160) 20.0 g मैग्नीशियम कार्बोनेट के नमूने को गर्म करने पर अपघटित होकर कार्बन डाई ऑक्साइड एवं 8.0 g मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। नमूने में मैग्नीशियम कार्बोनेट का शुद्धता का प्रतिशत क्या होगा?
- 84
  - 75
  - 96
  - 60
- (प. भार : Mg = 24)

- 161)  $CH_3CHOH.COOH$  की दो संभावित त्रिविम संरचनायें जो कि ध्रुवण पूर्णक हैं, कहलाती हैं:
- मेसोमर
  - डायास्टिरियोमर
  - एट्रोप्राइसोमर
  - प्रतिबिम्ब रूप

162. कार्बन से कार्बन डाईऑक्साइड के लिये दहन ऊष्मा  $-393.5$  kJ/mol है। कार्बन एवं ऑक्सीजन से 35.2 g  $CO_2$  बनने पर उत्सर्जित ऊष्मा है:
- 3.15 kJ
  - 315 kJ
  - +315 kJ
  - 630 kJ

163. अभिक्रिया  $A \rightarrow B$  के लिए वेग स्थिरांक  $0.6 \times 10^{-3}$  मोल प्रति सेकण्ड है। यदि A को सान्द्रता 5 M है तो 20 मिनट पश्चात B की सान्द्रता है:
- 0.72 M
  - 1.08 M
  - 3.60 M
  - 0.36 M

164. ऑक्साइड आयन  $O^{2-}(g)$  का आक्सीजन परमाणु से बनने के लिये पहले ऊष्माक्षेपी एवं बाद में ऊष्माशोषी चरण दिये गये हैं:
- $$O(g) + e^- \rightarrow O^-(g); \Delta_f H^\ominus = -141 \text{ kJ mol}^{-1}$$
- $$O^-(g) + e^- \rightarrow O^{2-}(g); \Delta_f H^\ominus = +780 \text{ kJ mol}^{-1}$$
- गैसीय अवस्था में  $O^{2-}$  का बनना प्रतिकूल है यद्यपि  $O^{2-}$  निऑन का समइलेक्ट्रॉनी है। यह किस तथ्य के कारण है?
- ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन के जोड़ से आयन का आकार बड़ा होता है।
  - नोबल गैस के विन्यास प्राप्ति के कारण स्थायीत्व से, इलेक्ट्रॉन प्रतिवर्षण प्रभावशाली होता है।
  - $O^-$  आयन का आकार ऑक्सीजन परमाणु की तुलना में छोटा होता है।
  - ऑक्सीजन ज्यादा वैद्युत ऋणत्वक है।

165. What is the mass of the precipitate formed when 50 mL of 16.9% solution of  $\text{AgNO}_3$  is mixed with 50 mL of 5.8%  $\text{NaCl}$  solution?

( $\text{Ag} = 107.8, \text{N} = 14, \text{O} = 16, \text{Na} = 23, \text{Cl} = 35.5$ )

- (1) 14 g
- (2) 28 g
- (3) 3.5 g
- (4) 7 g

166. Which is the correct order of increasing energy of the listed orbitals in the atom of titanium?

(At. no.  $Z = 22$ )

- (1)  $3s, 3p, 4s, 3d$
- (2)  $3s, 4s, 3p, 3d$
- (3)  $4s, 3s, 3p, 3d$
- (4)  $3s, 3p, 3d, 4s$

167. Reaction of a carbonyl compound with one of the following reagents involves nucleophilic addition followed by elimination of water. The reagent is:

- (1) sodium hydrogen sulphite
- (2) a Grignard reagent
- (3) hydrazine in presence of feebly acidic solution
- (4) hydrocyanic acid

168. The variation of the boiling points of the hydrogen halides is in the order  $\text{HF} > \text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$ .

What explains the higher boiling point of hydrogen fluoride?

- (1) The effect of nuclear shielding is much reduced in fluorine which polarises the HF molecule.
- (2) The electronegativity of fluorine is much higher than for other elements in the group.
- (3) There is strong hydrogen bonding between HF molecules.
- (4) The bond energy of HF molecules is greater than in other hydrogen halides

169. The name of complex ion,  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$  is:

- (1) Hexacyanidoferrate (III) ion
- (2) Hexacyanoiron (III) ion
- (3) Hexacyanidoferrate (III) ion
- (4) Tricyanoferrate (III) ion

165) जब 50 mL, 16.9%  $\text{AgNO}_3$  के विलयन को 50 mL, 5.8%  $\text{NaCl}$  के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बने अवक्षेप का भार क्या है ?

( $\text{Ag} = 107.8, \text{N} = 14, \text{O} = 16, \text{Na} = 23, \text{Cl} = 35.5$ )

- (1) 14 g
- (2) 28 g
- (3) 3.5 g
- (4) 7 g

166. टाइटेनियम परमाणु के दिये गये कक्षकों की ऊर्जा का बढ़ता सही क्रम कौन सा है ? (प. सं.  $Z = 22$ )

- (1)  $3s, 3p, 4s, 3d$
- (2)  $3s, 4s, 3p, 3d$
- (3)  $4s, 3s, 3p, 3d$
- (4)  $3s, 3p, 3d, 4s$

167. कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया में निम्न में से कौन अभिकर्मक नाभिकसनेही योग के पश्चात् जल का विलोपन है। अभिकर्मक है:

- (1) सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड
- (2) ग्रिगनार्ड अभिकर्मक
- (3) अम्लीय विलयन में हाइड्राजोन
- (4) हाइड्रोसायनिक अम्ल

168. हाइड्रोजन हैलाइडों के क्वथनांक में परिवर्तन का क्रम निम्न है:  $\text{HF} > \text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$

हाइड्रोजन फ्लोराइड के उच्चतम क्वथनांक की व्याख्या क्या

- (1) फ्लोरीन में नाभिकीय परिरक्षण प्रभाव बहुत कम है जो कि HF अणु को क्षुब्ध करता है।
- (2) फ्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता समूह के दूसरे से बहुत अधिक होती है।
- (3) HF अणुओं में हाइड्रोजन आबंध अधिक होता है।
- (4) HF अणु की आबंध ऊर्जा दूसरे हाइड्रोजन हैलाइड अधिक है।

169. संकुल आयन  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$  का नाम है:

- (1) हेक्सासायनाइडोफेरेट (III) आयन
- (2) हेक्सासायनोआयरन (III) आयन
- (3) हेक्सासायनोफेरेट (III) आयन
- (4) ट्राइसायनोफेरेट (III) आयन

Method by which Aniline cannot be prepared is:

- (1) potassium salt of phthalimide treated with chlorobenzene followed by hydrolysis with aqueous NaOH solution.
- (2) hydrolysis of phenylisocyanide with acidic solution.
- (3) degradation of benzamide with bromine in alkaline solution
- (4) reduction of nitrobenzene with  $\text{H}_2/\text{Pd}$  in ethanol.

the equilibrium constant for  $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$  is K, the equilibrium

constant for  $\frac{1}{2}\text{N}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{NO}(\text{g})$  will be:

$K^2$

$K^{1/2}$

$\frac{1}{2}K$

K

g reducing behaviour of  $\text{H}_3\text{PO}_2$  is due to:

Presence of two -OH groups and one P-H bond

Presence of one -OH group and two P-H bonds

High electron gain enthalpy of phosphorus

High oxidation state of phosphorus

Dimethyl-2-butene can be prepared by heating which of the following compounds with a strong acid?

$(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$

$(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}-\text{CH}=\text{CH}_2$

$(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{CH}=\text{CH}_2$

$(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

Aqueous solution of which of the following compounds is the best conductor of electric current?

Fructose,  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

Acetic acid,  $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$

Hydrochloric acid, HCl

Ammonia,  $\text{NH}_3$

170. किस विधि से ऐनीलिन को नहीं बनाया जा सकता है?

(1) फेलेमाइड के फोर्टेसियम लवण को क्लोरोबेन्जीन के साथ क्रिया करके, तत्पश्चात्  $\text{NaOH}$  के जलीय विलयन में जल अपघटन द्वारा।

(2) फेनिल आइसोसायनाइड का अम्लीय विलयन में जल अपघटन द्वारा।

(3) क्षारीय विलयन में बेन्जोमाइड का निर्माकण शोर्मान के साथ।

(4) ऐथेनाइल में नाइट्रोबेन्जीन का अपचयन  $\text{H}_2/\text{Pd}$  के साथ।

171. यदि  $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$  का साम्यावस्था स्थिरांक K है, तब  $\frac{1}{2}\text{N}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{NO}(\text{g})$  का साम्यावस्था स्थिरांक होगा:

(1)  $K^2$

(2)  $K^{1/2}$

(3)  $\frac{1}{2}K$

(4) K

172.  $\text{H}_3\text{PO}_2$  के प्रबल अपचायक गुण का कारण है:

(1) दो -OH समूहों एवं एक P-H आबंध की उपस्थिति

(2) एक -OH समूह एवं दो P-H आबंधों की उपस्थिति

(3) फॉस्फोरस की उच्च इलेक्ट्रॉन प्राप्ति ऐन्थैल्पी से

(4) फॉस्फोरस की उच्च ऑक्सिकरण अवस्था

173. निम्नलिखित में से किस यौगिक को प्रबल अम्ल के साथ गर्म करने पर 2, 3-डाइमेथिल-2-ब्यूटेन को बनाया जा सकता है?

(1)  $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}_2$

(2)  $(\text{CH}_3)_2\text{CH}-\underset{\text{CH}_3}{\text{C}}-\text{CH}=\text{CH}_2$

(3)  $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{CH}=\text{CH}_2$

(4)  $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

174. निम्न यौगिकों में से किसका जलीय विलयन बिद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है?

(1) फ्रक्टोस,  $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

(2) ऐसिटिक अम्ल,  $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$

(3) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl

(4) अमोनिया,  $\text{NH}_3$

175. The vacant space in bcc lattice unit cell is :

- (1) 32%
- (2) 26%
- (3) 48%
- (4) 23%

176. What is the mole fraction of the solute in a 1.00 m aqueous solution?

- (1) 0.0177
- (2) 0.177
- (3) 1.770
- (4) 0.0354


177. The oxidation of benzene by  $V_2O_5$  in the presence of air produces :

- (1) benzaldehyde
- (2) benzoic anhydride
- (3) maleic anhydride
- (4) benzoic acid

178. Caprolactam is used for the manufacture of :

- (1) Nylon - 6,6
- (2) Nylon - 6
- (3) Teflon
- (4) Terylene

179. The following reaction



is known by the name:

- (1) Schotten-Baumen reaction
- (2) Friedel-Craft's reaction
- (3) Perkin's reaction
- (4) Acetylation reaction

180. The number of water molecules is maximum in :

- (1) 18 moles of water
- (2) 18 molecules of water
- (3) 1.8 gram of water
- (4) 18 gram of water

175.bcc जालक एकक कोष्ठिका में रिक्त स्थान होता है :

- (1) 32%
- (2) 26%
- (3) 48%
- (4) 23%

176) 1.00 m जलीय विलयन में विलोय की मोल अंश है :

- (1) 0.0177
- (2) 0.177
- (3) 1.770
- (4) 0.0354


177) हवा की उपस्थिति में बेंजीन का ऑक्सीकरण  $V_2O_5$  देता है :

- (1) बेंजोइल-क्लोराइड
- (2) बेंजोइक एनाइड
- (3) मैलिक एनाइड
- (4) बेंजोइक अम्ल

178. कैप्रोलैक्टम का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में

- (1) नाइलॉन - 6,6
- (2) नाइलॉन - 6
- (3) टेफ्लॉन
- (4) टैरिलॉन

179. निम्न अभिक्रिया



किस नाम से जानी जाती है ?

- (1) शॉटन-बामन अभिक्रिया
- (2) फ्रीडेल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया
- (3) पेरकिन अभिक्रिया
- (4) ऐसीटाइलेशन (ऐसिलेशन) अभिक्रिया

180. जल अणुओं की अधिकतम संख्या है :

- (1) 18 मोल पानी में
- (2) पानी के 18 अणुओं में
- (3) 1.8 ग्राम पानी में
- (4) 18 ग्राम पानी में